

Quick Heal Technologies Ltd.

Security Simplified

Regd. Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Opposite Neco Garden Society, Viman Nagar, Pune 411014.

Tel: +91 20 66813232 | Email: cs@quickheal.co.in

CIN - L72200MH1995PLC091408

Ref. No.: QHTL/Sec/SE/2022-23/45 October 29, 2022

The Manager,

Corporate Services, BSE Limited, floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Ref: Security ID: QUICKHEAL Security Code: 539678

Dear Sir,

The Manager,

Corporate Services, National Stock Exchange of India Limited,14th Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

Symbol: QUICKHEAL

Series: EQ

Sub: Submission of the Post Buyback Public Announcement ("Post Buyback Public Announcement") for the Buyback of up to 50,00,000 fully paid-up equity shares of ₹ 10/- each ("Equity Shares") of Quick Heal Technologies Limited ("Company") at a price of ₹ 300 per Equity Share for a maximum amount of ₹ 150 crore ("Buyback Size") through the tender offer process pursuant to the SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") (the "Buyback").

This is in regard to the captioned buyback. As required under the Buyback Regulations, we are pleased to submit herewith a copy of the Post Buyback Public Announcement dated October 28, 2022, which was published on October 29, 2022 in the following newspapers:

Publication	Language	Editions
Financial Express	English	All*
Jansatta	Hindi	All
Aaj ka Anand	Hindi	Mumbai and Pune
Prabhat	Marathi	Pune

^{*}Please note that the Post-Buyback Public Announcement will be published in the Ahmedabad edition of Financial Express on October 30, 2022.

We are pleased to submit herewith the Post Buyback Public Announcement dated October 28, 2022 for your reference and dissemination.

Please acknowledge receipt of this intimation.

Thanking you.

For Quick Heal Technologies Limited

A. Srinivasa Rao Company Secretary M.No.: F9901

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

AETHER INDUSTRIES LIMITED

Registered and Corporate Office: Plot No. 8203, GIDC Sachin, Surat - 394230, Gujarat, India Website: www.aether.co.in, Email: compliance@aether.co.in; CIN: L24100GJ2013PLC073434

Surat, October 28, 2022:

Aether Industries Limited (NSE: AETHER, BSE: 543534), one of the fastest growing Speciality Chemicals company in India, have renewed a long-term agreement for 2 products being supplied to a leading global agrochemical innovator customer, post 3 years of successful supply under their Exclusive / Contract Manufacturing business model. The renewal is as per a clause of automatic renewal every year, post completion of the original contract duration of 3 years, agreed upon by the Parties in the long-term agreement signed 3 years ago.

This renewed contract will enable Aether to add to their top line by approximately Rs. 100 crores in FY-23.

These two products were developed by Aether initially under the CRAMS (Contract Research and Manufacturing Services) business model and were subsequently transferred to the Exclusive / Contract Manufacturing business model by the customer. With more than 5 years of business relations across various projects in both the CRAMS and Exclusive / Contract Manufacturing business models, Aether foresees continuous growth in their business with this leading global agrochemical innovator customer.

Speaking about the development, Dr. Aman Desai, Promoter and Whole Time Director of Aether Industries, said, "the renewal of this contract is a significant achievement for us and further strengthens our relationship with this global innovator agrochemical company. This renewal will also make a substantial contribution to our Exclusive / Contract Manufacturing business model revenues in the current fiscal year itself."

About Aether Industries Limited (Aether):

Incorporated in 2013, Aether Industries Limited is a speciality chemical manufacturer in India focused on producing advanced intermediates and specialty chemicals involving complex and differentiated chemistry and technology core competencies. Our vision is to create a niche in the global chemical industry with a creative approach towards chemistry, technology and systems leading to sustainable growth. We began commercial operations in the last quarter of FY17 and stand to be one of the fastest growing specialty chemical firms in India. The company has an installed capacity of 6000 MT as on date and operates its state of the art and DCS automated manufacturing facilities in Surat, Gujarat. We are ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISMS 27001:2013 and Indian GMP

RajCOMP Info Services Limited (RISL) C-Block, 1" Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur RISL invites ebids from the eligible bidders for the following:

NIB No./ Date/ **Particulars** Estimated Start of sale Unique bid no Cost/ EMD Last date Rs. 1.10 Cr. / 31.10.2022 85/27.10.2022 Request for Proposal (RFP) for (RIS2223WSOB00069) Interior Work at First Floor Rs. 2.20 Lacs 14.11.2022 Incubation Center Jodhpur.

Details can be seen on the websites http://risl.rajasthan.gov.in http://sppp.rajasthan.gov.in & http://doitc.rajasthan.gov.in. Bids are to be submitted

through http://eproc.rajasthan.gov.in. Technical Director (Civil & Electrical) Raj.Samwad/C/22/9638



Braithwaite & Co. Ltd., A Govt. of India Undertaking under Ministry of Railways invites applications from Indian Nationals for filling up the post of Engineer (Welding).

The details of post, qualification and experience required etc. are displayed in Company's website www.braithwaiteindia.com.

Closing Date: The last date & time of receipt of applications will be 20.11.2022, 4.00 P.M.

No. Rectt./2022/5 General Manager (HR, A, S)

Quick Heal

Security Simplified

Quick Heal Technologies Limited

Registered Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Viman Nagar, Pune - 411 014, India Phone: +91 (20) 6681 3232; E-mail: cs@quickheal.co.in; Website: www.quickheal.co.in Contact Person: Mr. Vinav Agarwal, Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

This post Buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 27, 2022 published on August 29, 2022 ("**Public** Announcement"), the letter of offer dated September 26, 2022 ("Letter of Offer") and the offer opening advertisement cum corrigendum to the Public Announcement dated September 30, 2022 published on October 1, 2022 ("Offer Opening Advertisement cum Corrigendum"). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement, the Letter of Offer and the Offer Opening Advertisement cum Corrigendum.

1. THE BUYBACK

- 1.1 Quick Heal Technologies Limited ("Company") had announced the Buyback of up to 50,00,000 (fifty lakhs) fully paid-up equity shares of ₹10/- (Rupees ten only) each ("Equity Shares"), representing up to 8.6% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as of March 31, 2022, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date being September 14, 2022 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share ("Buyback Price") for an amount aggregating up to ₹150 crore (Rupees one hundred and fifty crore only) ("Maximum Buyback Size", and such buyback of shares, the "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. and other incidental and related expenses ("Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represents 24.71% and 24.66% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the standalone and consolidated audited financial statements, respectively, of the Company as on March 31, 2022 (being the latest audited financial statements available as on the date of meeting of the board of directors of the Company held on July 21, 2022 to approve the proposal of Buyback).
- 1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares" through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 or such other circulars or notifications or amendments as may be applicable, issued by SEBI.
- 1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Tuesday, October 4, 2022 and closed on Tuesday, October 18, 2022.
- 2. DETAILS OF BUYBACK
- 2.1 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share.
- 2.2 The total amount utilized in the Buyback is ₹150,00,00,000 (Rupees one hundred and fifty crore only) excluding Transaction Costs.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 26,639 valid bids for 1,05,95,231 (One crore five lakh ninety five thousand two hundred thirty one only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 2.12 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
1	Reserved category for Small Shareholders	7,50,000	25,483	24,80,425	330.72%
2	General Category for all other Equity Shareholders	42,50,000	1,156	81,14,806	190.94%
	Total	50.00.000	26.639	1.05.95.231	211.90%

- 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/ rejection was dispatched by the Registrar through email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company and the Depositories) on October 27, 2022. In cases where the email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on October 27, 2022. Further in cases where the delivery of emails was unsuccessful, the dispatch for the same was completed by the Registrar on October 28, 2022. 2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on October 27, 2022. The Clearing Corporation has
- made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- 2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on October 27, 2022. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders/custodian and lien has been removed by the Clearing Corporation on October 27, 2022. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback.
- 2.7 The extinguishment of 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before November 3, 2022.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

Sr. No.	Particulars	Particulars Pre Buyback Post Buyback*			K*
	Julian William	No. of Equity Shares	Amount (in ₹Crore)	No. of Equity Shares	Amount (in ₹Crore)
1.	Authorised Share Capital	7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	75.00	7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	75.00
2.	Issued, Subscribed and Fully Paid- Up Share Capital	5,80,72,901 fully paid-up Equity Shares of ₹10/- each	58.07	5,30,72,901 fully paid-up Equity Shares of ₹10/- each	53.07

 Subject to extinguishment of 50,00,000 Equity Shares 3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)
1.	Kailash Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
2.	Sanjay Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
3.	Anupama Kailash Katkar	3,40,932	6.82	0.64
4.	Chhaya Sanjay Katkar	3,40,932	6.82	0.64
5.	Sequoia Capital India Investment Holdings III	3,10,921	6.22	0.59
6.	Jatinder Agarwal	59,310	1.19	0.11

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, (i.e., as on the Record Date being September 14, 2022) and post Buyback, is as under:

80 100 100	P	re Buyback	Post Buyba	ick	
Particulars	No. of Shares pre Buyback	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding post Buyback*	
Promoters and Promoter Group	4,22,63,177	72.78	3,87,86,353	73.08	
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	35,92,252	6.19			
Indian Financial Institutions/Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	525	0.00	1,42,86,548	26.92	
Public including other Bodies Corporate	1,22,16,947	21.03			
Total	5,80,72,901	100.00	5,30,72,901	100.00	

 Subject to extinguishment of 50,00,000 Equity Shares. MANAGER TO THE BUYBACK



Ambit Private Limited

Address: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Tel: + 91 (22) 6623 3030; Fax: +91 (22) 6623 3100 Contact Person: Mr. Miraj Sampat / Mr. Jatin Jain Email: quickheal.buyback2022@ambit.co; Website: www.ambit.co SEBI Registration Number: INM000010585

Validity Period: Permanent Registration CIN: U65923MH1997PTC109992

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain

> For and on behalf of the Board of Directors of Quick Heal Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kailash Katkar	Sanjay Katkar	Vinav Agarwal
Managing Director & CEO	Joint Managing Director & CTO	Compliance Officer
DIN: 00397191	DIN: 00397277	Membership No. A40751

Date: October 28, 2022 Place: Pune

financialexp.epap.in

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

any misleading information.



Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



No: RSMM/CO/PROJ/2022-23/267 Dated: 27.10.2022 Notice Inviting Expression of Interest (EOI)

http://www.rsmm.com or http://www.sppp.rajasthan.gov.in or may contact us at the above

Corrigendum-1 Ref: EOI No.-RSMM/CO/PROJ/2022-23/215 dated 29.09.2022 With reference to the above EOI, kindly note the following amendment as under:

ast date for submission of offer is extended as: ast date & time of submission 14.11.2022 up to 3.00 pm. Date of opening of offers: 14.11.2022 at 3.30 pm All other terms & conditions of the EOI shall remain same. Kindly visit our website

IIFL ASSET MANAGEMENT LIMITED Regd. Office: IIFL Centre, 6th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 ASSET MANAGEMENT CIN: U74900MH2010PLC201113

www.iiflmf.com

NOTICE IS HEREBY GIVEN GIVEN to all unitholder(s) of IIFL Mutual Fund that in accordance

with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, Un-Audited Financial Results

address for more information

Raj.samwad/C/22/9691

of respective schemes of IIFL Mutual Fund, for the half year ended September 30, 2022 have been hosted on the website of IIFL Mutual Fund, i.e., www.iiflmf.com. For IIFL Asset Management Limited

Place: Mumbai **Date:** October 28, 2022

Authorised Signatory

(₹ in lacs, unless otherwise stated)

(₹ in lacs, unless otherwise stated)

Year to date ended

Quarter Ended

Group General Manager (Project)

"MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY"

Vaibhav Global Limited

Regd. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004; Tel:-91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN: L36911RJ1989PLC004945;

E-Mail: investor_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2022

			Consolidated		
S.	Particulars	Quarter Ended		Year to date ended	
No.	Farticulars	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations (Net)	64,625.72	63,478.54	127,452.84	
2	Other Income	220.43	592.20	405.06	
3	Total Income	64,846.15	64,070.74	127,857.90	
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	3,116.59	5,829.82	5,616.58	
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	3,116.59	5,829.82	5,616.58	
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	2,303.75	4,213.02	4,261.80	
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the				
	period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,171.91	3,450.37	5,482.45	
8	Equity Share Capital	3,290.81	3,267.85	3,290.81	
9	Earnings Per Share (of ₹ 2 each) (for continuing and discontinued operations)				
	i) Basic EPS	1.40	2.57	2.59	
	ii) Diluted EPS	1.37	2.51	2.55	

Notes:

- The above unaudited consolidated financial results for the guarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 27 October 2022. The financial results for the quarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.
- Current tax includes minimum alternate tax (MAT), wherever applicable, and deferred tax includes MAT credit entitlement.
- 4 Key numbers of standalone financial results of the Parent Company, i.e., Vaibhav Global Limited are as under:

Particulars	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
Total Income	12,926.10	16,235.99	24,057.24	
Profit before tax	3,772.27	4,825.66	4,557.07	
Total Comprehensive Income	3,723.00	4,450.58	4,277.47	

- The unaudited consolidated financial results include the financial results of Parent Company and the financial results of the following subsidiaries and step-down subsidiaries (collectively referred as 'the Group'):
 - A. VGL Retail Ventures Limited, Mauritius
 - a. Shop TJC Limited, UK
 - i. Shop LC Global Inc., USA B. STS Global Supply Limited, Hong Kong (formerly STS Gems Limited)
 - a. Pt. STS Bali, Indonesia
 - b. STS (Guangzhou) Trading Limited, China
 - C. STS Jewels Inc. USA
- D. STS Global Limited, Thailand (formerly STS Gems Thai Limited)
- E. STS Global Limited, Japan (formerly STS Gems Limited)
- F. Vaibhay Vistar Limited, India
- G. Vaibhav Lifestyle Limited, India
- H. Shop LC GMBH, Germany
- Encase Packaging Private Limited, India (acquired on 15 March 2022)
- The shareholders of the Parent Company through postal ballot resolution dated 24 April 2021 approved the subdivision of one equity share of the Parent Company from face value of ₹ 10/- each into five equity shares of ₹ 2/- each. The record date for sub-division was 10 May 2021. All shares and per share information in the financial results reflect the effect of sub-division (split) retrospectively.
- The Parent Company has allotted 4,83,278 and 7,40,958 equity shares having face value of ₹2/- each for the guarter ended 30 September 2022 and year-to-date for the period from 01 April 2022 to 30 September 2022 respectively, under the Parent Company's Employees Stock Option Scheme - 2006 (as amended) through Vaibhay Global Employee Stock Option Welfare Trust at exercise price ranging from ₹2 - ₹394 (also refer note 6).
- 8 Item exceeding 10% of total expenditure (included in other expenses administrative and selling expenses)

(₹ in lacs_unless otherwise stated)

	Quarter Ended Half Year En		
Particulars	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022
Content and Broadcasting expenses	10,490.85	8,037.76	19,888.17
Packing and distribution expenses	4,581.90	5,470.47	9,604.87

- In earlier years, the Parent Company received notice from the Income Tax Department ("ITD") under Section 148 of the Act for Assessment Year 2012-13 to Assessment Year 2015-16. The Honorable High Court of Rajasthan had granted stay order on the Company's petition for these Assessment Years mentioned above. Based upon the nature and external expert opinion obtained by the Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings.
- 10 The Board of Directors of the Parent Company has declared interim dividend of ₹ 1.50/- per fully paid-up equity shares of ₹ 2/- each. The Company has fixed 05 November 2022 as the record date for payment of interim dividend on equity shares. The said interim dividend will be credited/dispatched to the respective equity shareholders within 30 days of the declaration of dividend. In addition to the above interim dividend of ₹ 1.50/-, an interim dividend of ₹ 1.50/- per share i.e., 75% on equity share capital was declared and paid during the current period. Hence total dividend of ₹ 3/- has been declared during the current period.
- 11 a) In earlier years, Shop LC Global Inc. (USA) (wholly owned step-down subsidiary of the Parent Company) had availed a loan of USD 48.07 lacs (equivalent to INR 3.520.33 lacs) at 1% interest under Paycheck Protection Program ('PPP') of US Small Business Administration (SBA) under CARES Act of USA. Under SBA guidelines, this loan was eligible for waiver subject to certain conditions, pending which it was classified as borrowings as at 31 March 2021. During the period ended 30 September 2021, Shop LC Global Inc. has received approval for waiver of entire loan which was disclosed as exceptional item amounting to ₹ 3,289.87 lacs (net of expenses) (equivalent to USD 44.70 lacs). Waiver of accrued interest of ₹ 32.46 lacs was netted off from finance cost.
 - b) During the previous year, Group had done functional restructuring at its Parent Company, two subsidiaries (Shop LC Global Inc. and STS Global Supply Limited, (formerly STS Gems Limited)) and its step-down subsidiary STS (Guangzhou) Trading Limited, in its pursuit of bringing in more efficiency. This involved reduction in manpower and hence resulted in a one-time cost of ₹ 465.71 lacs and ₹ 330.84 lacs for the year and quarter ended 31 March 2022 respectively.
- 12 During the current period, the Group has changed the name of following subsidiaries:

Previous Name	New Name	Effective Date
STS Gems Limited, Hong Kong	STS Global Supply Limited, Hong Kong	07 June 2021
STS Gems Thai Limited, Thailand	STS Global Limited, Thailand	16 July 2021
STS Gems Limited, Japan	STS Global Limited, Japan	03 June 2021

- 13 The Income Tax Department ("the ITD") conducted a Survey proceeding under section 133A of the Act at the premises of the Parent Company in November 2021, Subsequently, the Parent Company provided all cooperation and necessary data / documents/information. as requested by the ITD or otherwise. The ITD issued further gueries post the conclusion of survey to which the replies have/are been filed. As on date, based upon the nature and external expert opinion obtained by the Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings
- 14 The existing rating of CARE A for the long-term bank facilities have been reaffirmed to CARE A by CARE Ratings Limited which denotes adequate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. The existing rating of CARE A1 for the short-term bank facilities has been withdrawn by CARE Ratings Limited as it is subsumed under long term facilities only.
- 15 The Company operates in single business segment i.e. Fashion Jewellery and Life Style Products.
- 16 Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing) Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.vaibhavglobal.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Sunil Agrawal Managing Director DIN:00061142

Date: 27 October 2022



Place: Jaipur



सप्ताह, जो भी बाद में हो, है।

किरोड़ीमल कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

नार्थ कैम्पस, दिल्ली-110007 दूरमाष : 011-71219044 वेबसाइटः www.kmcollege.ac.in ई—मेंलः principal@kmc.du.ac.in

विज्ञा. संख्याः KMC/Principal/2022/01 कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर 14 पर नियक्ति हेत् पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र (वेब लिंक https://rec3.du.ac.in पर उपलब्ध) में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.11.2022 या रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से तीन

योग्यता, प्रकाशन, अनुभव, स्क्रीनिंग दिशानिर्देश और सांकेतिक प्रोफार्मा आदि के बारे में विवरण इस विज्ञापन के साथ कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को इन विवरणों को पढना आवश्यक है। किसी भी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र को केवल कॉलेज की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा।

हस्ता./-अध्यक्ष, शासी निकाय

दिनांक 29.10.2022

सार्वजनिक सूचना

(CIN: U32109CH1987PLC031464) के नाम और शैली वाली कंपनी, इन्सॉल्वेंसी एंउ बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2020 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन प्रक्रिय से गुजर रही है।

यह अवगत कराना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के तहत केएमपी के रूप में पूर्णकालिक कंपनी सचिव (सीएस) और पूर्णकालिक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की अनिवार्य नियुक्ति के प्रावधान मेसर्स हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड पर लाग हैं। माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा सीपी (आईबी) नं 515 / सीएचडी / सीएचडी / 2019 में आईए नं. 611 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 07.10 2022 के अनुसरण में, यह प्रकाशन कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और पूर्णकालिक कंपनी सचिव (सीएस) के वर्तमान रिक्त पद को भरने के लिए उपयुक्त एव योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने हेतू किया जा रहा है।

कार्यभार ग्रहण करने का स्थान चंडीगढ़ स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। तदनुसार, इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से एतद्दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास नवीनतम बायोडाटा की प्रति के साथ अपनी औपचारिक रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

हस्ता /– संयम गोयल संकल्प पेशेवर

हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) आईबीबीआई / आईपीए-002 / आईपी-एन00138 / 2017-18 / 10397

एएफए: एए2 / 10397 / 02 / 141122 / 201540. दिनांकः 29.10.2022 वैधता : 15/11/2021 से 14/11/2022 तक

यूनिट नंब.110, प्रथम तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वायर, सेक्टर 15, पार्ट Π , गुरुग्राम, हरियाणा-122001 , ईमेलः goelsanyam@gmail.com





उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुद ढीकरण परियोजना से संबद्ध मणिपुर राज्य के विभिन्न उप केंद्रों में बाहय अवसंरचनात्मक विकास सहित आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए टाउनशिप वर्क्स पैकेज-ई2 के लिए बोलियों के लिए निमंत्रण (आईएफबी) एकल चरण दो लिफाफा (एसएसटीई) बोली प्रक्रिया (वित्तपोषणः घरेल) घरेल प्रतिस्पर्दी बोली दिनांक: 28.10.2022

पावरग्रिङ निम्नलिखित पैकेज के लिए ई-पोर्टल https://etender.powergrid.in के जरिए

पैकेज संदर्भ	बोली दस्तावेजों की डाउनलोडिंग/बोली दस्तावेजों की लागत	बोली प्रस्तुति के लिए समय-सीमा (सॉफ्ट प्रति भाग और हार्ड प्रति भाग)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना से संबद्ध मणिपुर	14.11.2022 को 1100 बजे तक	सॉफ्ट प्रति भागः 14.11.2022 1100 बजे तक
राज्य के विभिन्न उप केंद्रों में बाह्य अवसंरचनात्मक विकास सहित आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए टाउनशिप वर्क्स पैकेज—ई2 विशिष्टता सं: 5002002375/कंसलटेंसी	भारतीय रुपये 25,000 / —	एवं हार्ड प्रति मागः 16.11.2022 1100 बजे तक

 बोली कार्यक्रम में परिशिष्ट / परिवर्तनों सहित. यदि कोई है. आगे विवरण के लिए कपया ले. प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://etender.powergrid.in देखें। 2. बोली का पहला लिफाफा दे (टेक्नो-कॉमर्शियल भाग) बोली प्रस्तुति के लिए समय-सीमा के दिन अर्थात् 1130 बजे से खोला 🎗 जाएगा। 3. पूर्ण बोली दस्तावेज केवल संदर्भ के उद्देश्य के लिए हमारी वेबसाइट हु http://www.powergrid.in पर भी उपलब्ध है। 4. एनआईटी / आईएफबी पहले ही 26.08.2022 है को पोर्टल https://etender.powergrid.in पर प्रकाशित किया जा चुका है। 5. किसी अन्य सूचना 🗟 के लिए, कुपया संपर्क करें: +919431820335, +919205472324

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) निगमित कार्या: "सीदामिनी", प्लॉट सं.-2, सैक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) फोन: 0124-2571700-719 पंजीकृत कार्याः वी-१, कृतुव इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-16 दूरमापः 011-26560112, 26560121 वेबसाईटः www.powergrid.in सीआईएनः L40101DL1989GOI038121

एक महारत्न पीएसय

© CENTRAL U.P. GAS LIMITED

NOTICE INVITING TENDER (OPEN DOMESTIC COMPETITIVE BIDDING) . Rate Contract and Empanelment of Contractors for Installation of G.I. Pipe and Last Mile Connectivity for City Gas Distribution Project at Kanpur, Unnao, Bareilly & Jhansi GA Rate Contract and Empanelment of Contractors for Laying of MDPE Network, Testing and Commissioning up to Transition Fitting for the connectivity of Domestic PNG Connections for City Gas Distribution Project at Kanpur, Unnao, Bareilly & Jhansi GA.

The details of the tender shall be available on CUGL's website www.cugl.co.in

Any revision, clarification, addendum, corrigendum, time extension, etc. to the above tender will be hosted on the website **www.cugl.co.in** only and no separate notification shall be issued in the press. Bidders are requested to visit the website regularly to keep themselves updated.

दक्षिणी रेलवे

Eloginitothttp://www.weipege.goovling-logfin, PEndenglendgooder&cse(vit)eis (meWr) arridaquote विक्रिक्तांताओं thiesentendens. Midinuat oftotations) will though entertained for ithese tenders.

क्रीस. No.	Te्मिविद्या गिं o.	Description	जिस्ल क्रीशि
1.	26220611	फ्रिक्र किस्प्रेज्ञजMPRESSOR	02/11/2022
2.	04221161A	। स्रिक्रिकेन स्टिप्ट ANCE KIT	04/11/2022
3.	06221002B	STETTION AND THE POT	04/11/2022
4.	26220997	REDLETS HIGH	04/11/2022
			3.0
5.	01220048B	PIA NARANINIUM	07/11/2022
6.	26222696	<u>ङ</u> ाख हिक् ल T	07/11/2022
7.	21220028	©™EN RUBBER	07/11/2022
8.	26223546B	DESEC COUNTING	07/11/2022
9.	01220051A	R·图A的表示的CED PAINT	09/11/2022
10.	67225266	BIOGHERIKIEDUNTED	09/11/2022
11.	26221010A	हिएलु \ऋगन्ट मॅन्डर० X	10/11/2022
12.	26221103	 अहमर⊙मार्ग∨मा सोर ARM	10/11/2022
13.	26222341	<u> কার্</u> ড বিশ্ব T	10/11/2022
14.	26221161	उन्होर स्थावरहरू सिंग्स HAULING	
			10/11/2022
15.	26220593	<u>क्रो</u> िक्Wह्मिं€OMPLETE	10/11/2022
16.	01224369B	इन्नोक्खुलमञ्जी।श्रापूर्विCULUM	11/11/2022
17.	26223554	क्लंब्राक् RACTOR	14/11/2022
18.	26221116	PHT NO NO BET AFT	14/11/2022
19.	04220108A	WHERE PIECE	14/11/2022
20.	26222062	<u>ङ</u> ख £क्द । প্রেটাদ -1	14/11/2022
21.	06224292	 रूपे+222√पे8 बेल्प्स	14/11/2022
22.	262200260	कुछेष्य क्रिक्ट LEVER	14/11/2022
23.	04221166A	₹228®	15/11/2022
24.	04221106A		15/11/2022
25.	26220801	भिन्नुधान् त्रार्च N कार्यान्त त्रारुक YSTEM	16/11/2022
26.	26221163	BEDIEWANDER MOTOR	16/11/2022
27.	26221007A	क्रिफेरिजेंसINTENANCE	17/11/2022
28.	11220590A	रेक्टिएर्गॅाम्सER	18/11/2022
29.	44220446B	ब्रामा⊖स्ट्र€ENTRE	18/11/2022
30.	E	अर्जूसिप्त क्रिक्किक्स STALLATION	18/11/2022
31.		\$सर्च @F सेद्धACERS	18/11/2022
32.	26221092	र्ध्या हिंकु कि ट P	18/11/2022
33. 34.	44220493A 44220243	遠無A陶岳徳公LINDER 団球球球 意识でで多C	21/11/2022 21/11/2022
35.	26221090	SECHOFI KICS	21/11/2022
36.	26221159	反图 Diff RAME	22/11/2022
37.		अर्थनं साक्षेत्र सं OLDER	22/11/2022
38.	26221123A	ग्र श्चोस्दिक्ट	22/11/2022
39.	90226121A	ित्सिक्डिश्रास्तिं	22/11/2022
40.	21221082	IŞİRIK VANND BUFF	23/11/2022
41.	06220652B	PRODES ATED	24/11/2022
42.	26221105	ह्या में चित्र स्विद्ध O WAY	24/11/2022
43.	26220582	16 PRETH	24/11/2022
44.		水製は神砂樹附T PIECE	24/11/2022
45.		Mile रिखरकेंद्रDANT	24/11/2022
46.	01224334	मिंद्र। द्विनेमल्लNAMEL ८०३ प्रसारक विक्र ९७३ प्रमाले	25/11/2022
47. 48.	04220609 04221178	BRANEESYLINDER	02/12/2022 28/11/2022
٦٥.	U-12211/0	אויאות ישייו וווחבוע	20/11/2022

11220378 **STORE** 05/12/2022 PRINCIPAL CHIEF MATERIALS WANAGER Follow us on : 😽 twitter.com/GMSRailway

अप्रद्धां एक LTAGE

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः पीआर. मुख्य अभियंता (डब्ल्युडब्ल्यु)/ईई (ई एंड एम)-II

49.

50.

11220401

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। (योगेश लोहचाब पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 395 (2022-23) कार्यपालक अभियंता (ईएंड एम)-II

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार



गौरव कटियार मैसर्स पिको इवेंट मार्केटिंग (इंडिया)

हस्ता /

प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक पंजी.सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409 (एएफए 06.12.2022 तक वैध है) पताः डी-32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ईमेल : picoevent.cirp@gmail.com दिनांक: 28.10.2022 | स्थान: नई दिल्ली

मध्यस्थ अधिनिर्णय का असाइनमेंट

(माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के

समक्ष निष्पादन के लिए लंबित)

मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के

परिसमापक ने ई-नीलामी के माध्यम से विनियमन 37ए

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के

तहत मध्यस्थ अधिनिर्णय (माननीय दिल्ली उच्च

न्यायालय के समक्ष निष्पादन के लिए लंबित) के

इस संबंध में अभिरुचि की अभिव्यक्ति ("ईओआई" मध्यस्थ अधिनिर्णय के पर्वोक्त असाइनमेंट के संबंध में बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित की जाती है रुचि रखने वाले बोलीदाताओं से अनुरोध है कि व

ई-नीलामी में माग लेने के लिए अपनी बोलियां प्रस्तत

करने से पहले विस्तत बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के

नियम और शतों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के लिए

परिसमापक की वेबसाइट www.gauravkativar.in

संपर्कः श्री गौरव कटियारः 9818949966

असाइनमेंट का प्रस्ताव किया है ।

पर जाएं।

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI Notice Under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure RFA 439/2021 & C.M. No. 46987/2021 Appeal against the Order dated 04.09.2021. Passed by Smt. Gurmohina Kaur, ADJ-03 (South District), Saket Court Complex, Delhi In Civil Suit No. 6129/2016

Sulakhan Singh & Anr.Appellant **Versus** Sukhdev Singh Kohli (Thr LRs) & Ors. ...Respondent

Notice to : Respondent: 1. Shri Sukhdev Singh Kohli, Thr LRS i. Ms. Mehak Kohli D/o Shri Sukhdev Singh Kohli

ii. Wife ii. Son All R/o 1064-B/7, Qutab Greens Apartments, Ward No. 7, Mehrauli, New Delhi

Ms. Mehak Kohli d/o Shri Sukhdev Singh Kohli R/o 1064-B/7, Qutab Greens Apartments, Ward No. 7, Mehrauli, New Delhi

Whereas the above-noted appellant has presented an appeal under Section 96 CPC along with the abovementioned application which were listed before the Court on 22.12.2021 and the Court ordered issuance of notice to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner, Notice is hereby issued that, if you wish to defend the above-mentioned appeal and applications, you may cause an appearance to be entered on your behalf either personally or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Court of Worthy Registrar (Appellate) on 19.12.2022 (actual) at

11:00 a.m. If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorized to act for you in the said appeal and application on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing. of the said appeal and applications will be given and the same will be heard and determined ex-parte in your absence.

Given under my hand and the seal of this Court on this 17th day of October, 2022.

Assistant Registrar (Appl.) (Civil) for REGISTRAR GENERAL

वजीराबाद वाटर वर्क्स. तिमारपर, दिल्ली-110054

ईमेल : eeemww2.djb@nic.in



01/12/2022

	98009 08009 119				
	प्रैस एनआईटी	सं. 15 (202	2-23)		8 ==
गई सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि⁄समय
1	वजीराबाद वाटर वर्क्स में 2रे 40 एमजीडी प्लान्ट में ''एचओडी'' मैक के क्लेरिफायर्स स्पेयर्स की आपूर्ति।	मद दर	68100/-	निविदा आईडी: 2022_DJB_231576_1 प्रकाशन की तिथि 28 अक्टू. 2022 01.00 बजे अप. से	10 नव. 2022 के 1.15 अप. तक

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें''

कार्यालयः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एम)-4 लखनऊ रोड. तिमारपर. दिल्ली-110054 एनआईटी सं. 44 (मद सं. 1) (2022-23) उप एस.ई./ए.सी.ई. (एम)-4



_			_			
क्रम	कार्य का विवरण	अनुमानित	धरोहर	निविदा	इ-प्रापण	ई-प्रापण सॉल्यूशन
सं.		लागत	राशि	शुल्क	सॉल्यूशन के	के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम
		(रु.)		(अप्रतिदेय)	माध्यम से निविदा	तिथि⁄समय
					जारी की तिथि	
1.	एसीई (एम)-04 के अंतर्गत ए सी-03 में तिमारपुर वार्ड में	2711414/-	54300/-	500/-	28.10.2022 01	तकनीकी बोली 14.11.2022 के 3.00 बजे अप.
	पटेल चेस्ट चौक पर ऑगर बोरिंग पद्धत्ति द्वारा स्थापित सीवर				बजे अप. से	तक प्राप्त की जाएगी तथा वित्तीय बोली को तकनीक
	लाइन का विस्थापन।					बोली की पूर्णता तथा बैंक से ईएमडी की पुष्टि के
	आई.डी. 2022_DJB_231575_1		0			बाद खोला जायेगा।
इस	संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocure	ement.delh	i.gov.in	' पर देखें।		हस्ता./-

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी) विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 393 (2022-23) ''कोरोना रोकें; मॉस्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें: हाथों को स्वच्छ रखें''

(एस.के. सिंह) उप एस.ई.- (एम)-4

IndusInd Bank

इंडसइंड बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 2401, जनरल थिमैया रोड, (कैंटोनमेंट), पूणे-411 001 शाखा कार्यालय : संगम कॉम्पलेक्स, भूतल, ऑफ मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-302006

कर्जा सूचना[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार]

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए मांग सचना निर्गत की थीं।

कर्जदार/सह–कर्जदारों द्वारा राशि के पनर्भगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति

व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त कर्जदार/सह–कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों

के साथ किसी प्रकार का लेन-देन इंडसइंड बैंक लिमिटे	ड के अभियोग का विषय होगा।	
कर्जदारों का नाम तथा पता एवं मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा कब्जे की तिथि	कब्जा सूचना में मांगकृत राशि (रु.)
 सुरेश कुमार वर्मा चित्तर मल वर्मा राम प्रसाद, सभी का पता : 75, बलाइयों का मोहल्ला बोबास जयपुर, जयपुर, आयुर्वेदिक के सामने, राजस्थान-303338 मांग सूचना की तिथि : 30 जून, 2021 		30 जून, 2021 तथा रु. 1200092/- (रुपये बारह लाख बानबे मात्र) तथा 30 जून, 2021 तक रु. 421645/- (रुपये चार लाख इक्कीस हजार छः सौ पैंतालीस मात्र)

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(अधिकृत प्राधिकारी) स्थान : जयपुर तिथि : 29.10.2022 कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड

CORRIGENDUM

This corrigendum pertains to the Public Notice, dated 26 October 2022, related to the 'Discontinuation of manufacturing/marketing of the listed medicines' issued under the name of Baxter Pharmaceuticals India Private Ltd. on page 7. Through this corrigendum, the general public is hereby requested to read the date mentioned in the notice as '19th October 2022' in place of incorrectly mentioned '18th October 2022'.

सूचना

मै मनीष पवार प्रोपराइटर मैपल रिसर्च के द्वारा सुचित करते है कि सेबी के आदेश दिनांक 21 सितंबर 2022 के अनुपालन में बैंकिंग चौनल के माध्यम से अपने सभी ग्राहको को पैसे वापस करना चाहते है। कुपया मुझे इस पते पर संपर्क करें, हाउस नं. 55 नई आबादी राम नगर बडी भमोरी इंदौर मध्यप्रदेश मोबाईल नंबर 8602223129 और इमेल आईडी manishpawa759@gmail.com सुचित किया जाता है।

MONDER

HOME FINANCE

वडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉरपोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा ब्याज के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने दिनांक 04.08.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं / गारंटर / गिरवीकर्ता श्रीमती निधि (आवेदक और बंधक), श्री सोनेश कुमार (सह—आवेदक), और श्री रमन कुमार (गारंटर) को नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए 11,19,416 / - (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार चार सौ सोलह केवल) है, 07.07.2022 को पूरा भुगतान होने तक अनुबंधित दर पर आगे ब्याज के साथ देय है। नोटिस / सुचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर। उधारकर्ता / बंधककर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस

दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(4) उक्त अधिनियम के वर्ष 2022 के अक्टूबर के इस दिन उक्त नियमों के नियम 8 के साथ

स्रक्षित परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / बंधककर्ता और आम जनता को एतदवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। 11,62,692 / — 06.10.2022 को आगे न शुल्कों के साथ, कम वसूली यदि कोई हो, जब तक कि पूर्ण भूगतान न हो जाए।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती निधि पत्नी श्री सोनेश कुमार की संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल। प्लॉट नंबर 117, खसरा नंबर 780, ग्राम सलेमपुर, महदूव –1. परगना रुडकी, तहसील और जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249402 में स्थित भिम और भवन, संरचनाएं, निर्माण, स्थापना आदि र

	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
दस्तावेज के अनुसार	ਪ੍ਜੀਂਟ ਜਂ. 118	प्लॉट नं. 116	200 फीट चौड़ी रोड	अन्य प्लॉट
वास्तविक	सोनू जी का घर	पिन्टू जी का घर	200 फीट चौड़ी रोड	अन्य प्लॉट

दिनांक : 29.10.2022 स्थान : जयपर

अधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

Quick Heal

Security Simplified

Quick Heal Technologies Limited

Registered Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Viman Nagar, Pune - 411 014, India Phone: +91 (20) 6681 3232; E-mail: cs@quickheal.co.in; Website: www.quickheal.co.in

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

Contact Person: Mr. Vinav Agarwal, Compliance Officer

This post Buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 27, 2022 published on August 29, 2022 ("Public Announcement"), the letter of offer dated September 26, 2022 ("Letter of Offer") and the offer opening advertisement cum corrigendum to the Public Announcement. dated September 30, 2022 published on October 1, 2022 ("Offer Opening Advertisement cum Corrigendum"). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement, the Letter of Offer and the Offer Opening Advertisement cum Corrigendum.

- 1.1 Quick Heal Technologies Limited ("Company") had announced the Buyback of up to 50,00,000 (fifty lakhs) fully paid-up equity shares of ₹10/- (Rupees ten only) each ("Equity Shares"), representing up to 8.6% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as of March 31, 2022, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date being September 14, 2022 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share ("Buyback Price") for an amount aggregating up to ₹150 crore (Rupees one hundred and fifty crore only) ("Maximum Buyback Size", and such buyback of shares, the "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. and other incidental and related expenses ("Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represents 24.71% and 24.66% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the standalone and consolidated audited financial statements, respectively, of the Company as on March 31, 2022 (being the latest audited financial statements available as on the date of meeting of the board of directors of the Company held on July 21, 2022 to approve the proposal of Buyback).
- 1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 or such other circulars or notifications or amendments as may be applicable, issued by SEBI.
- 1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Tuesday, October 4, 2022 and closed on Tuesday, October 18, 2022. 2. DETAILS OF BUYBACK
- 2.1 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share. 2.2 The total amount utilized in the Buyback is ₹150,00,00,000 (Rupees one hundred and fifty crore only) excluding Transaction Costs
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 26,639 valid bids for 1,05,95,231 (One crore five lakh ninety five thousand two hundred thirty one only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 2.12 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
1	Reserved category for Small Shareholders	7,50,000	25,483	24,80,425	330.72%
2	General Category for all other Equity Shareholders	42,50,000	1,156	81,14,806	190.94%
	Total	50,00,000	26,639	1,05,95,231	211.90%

rejection was dispatched by the Registrar through email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company and the Depositories) on October 27, 2022. In cases where the email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on October 27, 2022. Further in cases where the delivery of emails was unsuccessful, the dispatch for the same was completed by the Registrar on October 28, 2022. 2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on October 27, 2022. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were

2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/

- not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders. 2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on October 27, 2022. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders/custodian and lien has been removed by the Clearing Corporation on October 27, 2022. No Equity Shares held in
- physical form were tendered or accepted under the Buyback.
- 2.7 The extinguishment of 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before November 3, 2022. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company, pre-Buyback (i.e., as on the Record Date) and post-Buyback, is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyba	ck	Post Buybac	k*
		No. of Equity Shares	Amount (in ₹Crore)	No. of Equity Shares	Amount (in ₹Crore
1.	Authorised Share Capital	7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	75.00	7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	75.00
2.	Issued, Subscribed and Fully Paid- Up Share Capital	5,80,72,901 fully paid-up Equity Shares of ₹10/- each	58.07	5,30,72,901 fully paid-up Equity Shares of ₹10/- each	53.07

* Subject to extinguishment of 50,00,000 Equity Shares 3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % o total Post Buyback Equity Shares (%)
1.	Kailash Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
2.	Sanjay Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
3.	Anupama Kailash Katkar	3,40,932	6.82	0.64
4.	Chhaya Sanjay Katkar	3,40,932	6.82	0.64
5.	Sequoia Capital India Investment Holdings III	3,10,921	6.22	0.59
6.	Jatinder Agarwal	59,310	1.19	0.11

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, (i.e., as on the Record Date being September 14, 2022) and post Buyback, is as under:

Particulars	P	re Buyback	Post Buyback	
	No. of Shares pre Buyback	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding post Buyback*
Promoters and Promoter Group	4,22,63,177	72.78	3,87,86,353	73.08
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	35,92,252	6.19	1,42,86,548	26.92
Indian Financial Institutions/Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	525	0.00		
Public including other Bodies Corporate	1,22,16,947	21.03		
Total	5,80,72,901	100.00	5,30,72,901	100.00

Total * Subject to extinguishment of 50,00,000 Equity Shares.

MANAGER TO THE BUYBACK



Ambit Private Limited Address: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Tel: + 91 (22) 6623 3030; Fax: +91 (22) 6623 3100 Contact Person: Mr. Miraj Sampat / Mr. Jatin Jain Email: quickheal.buyback2022@ambit.co; Website: www.ambit.co SEBI Registration Number: INM000010585

Validity Period: Permanent Registration CIN: U65923MH1997PTC109992

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this

Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.


For and on behalf of the Board of Directors of Quick Heal Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kailash Katkar	Sanjay Katkar	Vinav Agarwal
Managing Director & CEO	Joint Managing Director & CTO	Compliance Officer
DIN: 00397191	DIN: 00397277	Membership No. A40751

Date: October 28, 2022 Place: Pune

www.readwhere.com

Never Born Never Died.



अगर हम अपनी जिंदगी के सवालों को चारों तरफ देखें, अखबार उठाकर देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि हम जिंदगी के किसी बड़े मसले पर विचार भी कर रहे हैं? हम किस बात पर विचार करते हैं ? हम विचार करते हैं कि नर्मदा का जल मध्य प्रदेश का है, कि गुजरात का है? हम जैसे नासमझ

लोग खोजने ही मुश्किल हैं. हमारे अखबार क्या विचार करते हैं कि एक जिला कर्नाटक में रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में ? इसमें गोली चलेगी. हम जिन समस्याओं से बातें करते हैं, वे समस्याएं नहीं हैं. बीमारियां हैं और जिंदगी के सामने जो समस्याएं मुंह उठाए खड़ी हैं, उनकी तरफ हम विचार ही नहीं करते. उनको हम देखते ही नहीं. जब वह हमको पकड़ लेती हैं गर्दन से, तब हम चिल्लाते हैं, रोते हैं.फिर एक ही उपाय रह जाता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें. क्योंकि जब हम कुछ कर सकते थे, वह समय हम खो देते हैं और जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, जब हम असहाय हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं,

सच्ची प्यास और गहरी श्रद्धा से जीवन में क्रांति होती

एक महान् रहस्यदर्शी मिलेरेप्पा के बारे में ऐसा ही कहा जाता है. जब तिब्बत में वह अपने गुरु के पास गया तो वह इतना अधिक विनम्र, इतना पवित्र और इतना अधिक प्रामाणिक था कि वहां अन्य शिष्यों को उससे ईर्ष्या होने लगी. यह निश्चित था कि वह गुरु का उत्तराधिकारी बनता. और वास्तव में उस आश्रम में राजनीति चल रही थी, इसलिए उन लोगों ने उसे मार डालने का प्रयास

एक दिन उन लोगों ने उससे कहा-''यदि तुम वास्तव में सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो क्या तुम इस पहाड़ी से नीचे कूद सकते हो? यदि तुम वास्तव में गुरु पर विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो तुम्हें कुछ भी हानि नहीं हो सकती." और मिलेरेप्पा बिना किसी हिचक के, बिना एक क्षण सोचे पहाड़ी से नीचे कूद पड़ा.

किया.



वे दौड़ते हए नीचे पहंचे क्योंकि वह लगभग तीन हजार फुट गहरी घाटी थी. लेकिन वह वहां पद्मासन लगाए बहुत प्रसन्न और अत्यधिक आनंदपूर्ण स्थिति में बैठा मिला. उसने अपने नेत्र खोले और कहा-'तुम लोग ठीक कहते थे, विश्वास और श्रद्धा ही रक्षा करते हैं.'' उन लोगों ने सोचा कि यह जरूर ही कोई संयोग हो सकता है.

इसलिए जब एक दिन एक घर में आग लगी थी तो उन लोगों ने उससे कहा- '' यदि तुम अपने सद्गुरु से प्रेम करते हो, उन पर श्रद्धा रखते हो, तो इस घर के अंदर जाकर लोगों को बचाओ.' वह तुरंत उस घर में लगी आग के अंदर चला गया, जहां एक स्त्री और एक बच्चा रह गए थे.

आग बहत भयानक थी और सभी

जायेगा, लेकिन वह बिना जले बाहर

एक दिन वे सभी कहीं जा रहे थे और सभी को एक नदी पार करनी थी. उन लोगों ने उनसे कहा- ''तुम्हें तो नाव से नदी पार करने की कोई जरूरत है ही नहीं. तुम्हारे पास तो इतनी महान श्रद्धा और विश्वास है, तुम तो नदी पर चल सकते हो. और वह नदी के जल पर चलता हुआ उस पार जा पहुंचा.'' यह पहला अवसर था कि सद्गुरु ने यह चमत्कार देखा. वह उसके प्रति अनजान था.

उसने मिलेरेप्पा से कहा- ''तुम यह क्या कर रहे हो? यह तो असंभव है.'' और मिलेरेप्पा ने कहा- ''बिल्कुल भी असंभव नहीं है. मैं यह सब कुछ आपकी ही शक्ति द्वारा ही कर रहा हूं. '' अब वह सद्गुरु विचार में पड़ गया-''मेरे नाम और मेरी शक्ति से यह अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति यह सबकुछ कर सकता है..

अपने ढंग से हर कोई 'राजनीति' में शामिल होता है

मन ही राजनीति है. मन की सारी चेष्टाएं शोषण की हैं. मन के सारे आयोजन दूसरों पर मालिकयत करने के हैं. मन महत्वाकांक्षा के जहर से भरा है. मन ही राजनीति है. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि धार्मिक व्यक्ति को राजनीति की दिशा में जाना असंभव है. क्योंकि धार्मिक व्यक्ति पैदा ही तब होता है जब वह मन के पार उठता है, ध्यान में उठता है, अ-मन की दशा में जाता है, उन्मन होता है, तब तो धर्म पैदा होता है. राजनीति का अर्थ होता है : दूसरों पर कब्जा कर लूं, दूसरों से

बड़ा हो जाऊं, दूसरों से महत्वपूर्ण हो जाऊं, दूसरों को पीछे डाल दूं, दूसरे न कुछ सिद्ध हो जाएं और मैं सब कुछ हो जाऊं, मेरा अधिकार बड़ा हो, मेरी सत्ता बड़ी हो, मेरा अहंकार बड़ा हो, मेरा अहंकार सिंहासन पर बैठे, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे.

फिर ध्यान रखना कि जहां इतने लोग राजनीति में लगे हों. वहां सभी लोग स्वर्ण-सिंहासनों पर तो बैठ नहीं सकते. तो जो बैठने में सफल हो जाते हैं, वे अहंकारी हो जाते हैं; और जो बैठने में हारते जाते हैं और सफल नहीं हो पाते, वे धीरे-धीरे हीनता की

ग्रंथि से भर जाते हैं. तो कुछ बन जाते हैं मालिक और कुछ बन जाते हैं गुलाम. लेकिन आदमी मालिक बने तो विकृत हो जाता है, गुलाम बने तो विकृत हो जाता है, आदमी तो आदमी ही रहे तो संदर होता है. किसी का मालिक बनना राजनीति है और किसी को गुलाम बन जाना भी राजनीति है. तो न तो किसी का मालिक बनना चाहना और न किसी का गुलाम बनना चाहना न तो किसी को मौका देना कि तुम्हें मालिक बना ले और न किसी को मौका देना कि तुम्हें गुलाम बना ले.

ईर्ष्या के मौजूद रहते व्यक्तित्व कभी भी प्रेमपूर्ण व आनंददायी नहीं बन सकता

पति और पत्नी एक-दूसरे पर क्रोध से भरे हुए हैं, बजाय एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञता के. बजाय इसके कि पत्नी ने समझा हो कि पति ने उसके जीवन को धन्य किया; पत्नियां समझ रही हैं कि पति ने जीवन को नष्ट किया. बजाय इसके कि पति समझे कि पत्नी ने उसके जीवन को सौरभ दिया, सुगंध दी; पृति समझ रहा है, कहां से इस स्त्री के उपद्रव में पड़ गये, यह सब नष्ट हो गया.

मैंने सुना है कि एक आदमी की पत्नी मर गयी तो वह बहुत रो रहा था. फिर अर्थी उठायी गयी. फिर अर्थी उठाकर लोग बाहर आये. सामने एक नीम का दरख्त था, उससे अर्थी टकरा गयी भूल से. वह स्त्री मरी नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश थी. वह एकदम चौंककर उठ आयी. घर में बड़ी हैरानी हो गयी. सब लोग विदा करने आये हैरान हो गये. फिर तीन साल बीत गये, फिर वह पत्नी दोबारा मरी. फिर अर्थी निकलने लगी. वह पति रो रहा था. लोग अर्थी निकाल रहे थे. उसने कहा, भाइयों जरा सम्हालकर निकालना. नीम से फिर न टकरा जाये, क्योंकि पिछली बार यह भूल

मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते

हैं कि ज्योतिषी महाराज को जन्म-पत्री दिखलायी थी, उन्होंने कहा कि इस

जन्म में समाधि का मृहर्त नहीं है. तो मैं संन्यास लूं कि नहीं? ज्योतिषियों से पूछ

रहे हैं समाधि का मुहूर्त! तुमने समाधि

को कोई रेसकोर्स का घोड़ा समझा है,

कि लाटरी की, कोई टिकट समझी है!

कैसे कैसे उपयोग खोजते हैं! मेरे पास

लोग आते हैं, वे कहते हैं: संन्यास तो

लेना है, लेकिन शुभ घड़ी में लेंगे. कौन

सी शुभ घड़ी? परमात्मा अभी है, तो

यह घड़ी शुभ नहीं है? सारे दिन प्यारे

हैं, सारे क्षण प्यारे हैं, क्योंकि सारे दिन

उस में पगे हैं, सारे दिन उस में हैं.

हर घड़ी वही तो है, और तो कोई भी

ग्रह मुह्रत चौघड़ी देखे बिना ही

यह मिलन की शुभ घड़ी है चलो

भीगें

प्यारवाले इस क्षणों की उम्र अभी

कुल उमर से भी बड़ी है चलो भीगें

भीगने का अवसर आ जाए तो तुम्हारी

सारी हजारों-हजारों जिंदगियों की

लंबाई व्यर्थ हो गई; उसके प्रेम का एक

क्षण भी शाश्वत है. वर्षों जीने का कोई

अर्थ नहीं है; एक क्षण उसके प्रेम में

जी लेना पर्याप्त है. सारे जीवन-जीवन

की, अनंत-अनंत जीवन की तृप्ति हो

जाती है.

एक क्षण भी उस के प्रेम में तुम्हें

खूब होशियार हैं लोग! बचने के



हो गयी थी. अब ऐसे वह रो भी रहा है पत्नी के मर जाने पर, ऐसे ही, लेकिन भीतर उसका कोई कोना प्रसन्न

हमारे संबंधों में- स्त्री और पुरुष के बीच इतनी ही दुविधा हो गयी है! पत्नी रोयेगी पति के मर जाने पर. कितनी बार उसके लिए नहीं सोचा है कि इसके छटकारा ही हो जाये. समाप्त ही हो जाये तो अच्छा है. पति रोयेगी पत्नी के मरने पर. कितनी बार उसने नहीं सोचा है कि इससे न मिलना होता तो ही अच्छा होता, यह मर ही जाये तो अच्छा. यह भी साथ चलता है. ये दोनों बात साथ चलेंगी तो हमारे संबंध आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? और अगर परिवार ही शांतिपूर्ण ने हो तो यह पृथ्वी शांतिपूर्वक नहीं

लोक लाज छोड़ोगे तो ही नाच सकोगे और भीग पाओगे !

लाज की चलती मगर संकोच की

यह तोड़ दो जो हथकड़ी है चलो

मगर बड़ा लाज, बड़ा संकोच

दुनिया क्या कहेगी!

ध्यान रहे, हर सफलता नई असफलता का बोध देती है

अरब में एक छोटी-सी कहावत है. एक बूढ़े ऊंट से किसी ने पूछा कि, 'तुम पहाड़ पर जाते वक्त ज्यादा आंनद अनुभव करते हो, कि पहाड़ से नीचे जाते वक्त?' उसने कहा, 'ये दोनों बातें फिजूल हैं. असली सवाल यह है कि मेरे ऊपर बोझ है या नहीं. ऊपर-निचे का कोई सवाल नहीं है. मेरा दोनों वक्त एक ही काम रहता है. चाहे पहाड़ के नीचे जाऊं, तो बोझ ले जाता हूं. चाहे पहाड़ के ऊपर जाऊं, तो बोझ ले जाता हूं. कोई फर्क नहीं पड़ता. सदा बोझ ही ढोता हूं. लेकिन हमें फर्क लगता है. कभी

जब हम सफलता की तरफ जा रहे होते हैं, तो बोझ हम आसानी से ढोते हैं, क्योकिं हमें लगता है, पहाड़ उतार

जल्दी पहंच जाते हैं. पर हमें पता नहीं कि पहाँड़ के नीचे जाकर करना क्या है? फिर नया बोझ लादना है, फिर नया बोझ लादना है, फिर पहाड़ पर चढ़ना है.

हर सफलता, नयी असफलता का बोध देगी. हर सफलता नयी सफलता के लिए यात्रा बनेगी. हर सफलता पड़ाव होगी. मंजिल तो नहीं. मगर जब सफल होता है.

द्वार पर खड़े हुए दिखाई पड़ते.

फिर संयोग की बात, फिजिक्स के

प्रोफेसर से किसी ने मेरी मुलाकात करवा दी. और वे मेरी बातों में धीरे-धीरे इतने

उत्सक हो गए कि एक दिन मुझे घर

भोजन पर निमंत्रण किया. तो मैंने उनसे

कहा कि मेरे एक मित्र भी हैं, वे सदा

आपके घर तक मेरे साथ घूमने आते हैं,

उनको भी ले आऊं? तो उन्होंने कहा:

बहत प्रशंसा की होगी कि दो बहत

अद्भुत व्यक्तियों को लेकर आ रहा हूं.

हम दोनों को देखा तो सारे बच्चे, पत्नी,

उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को

बड़ी तैयारियां की गई. और जब

उन को भी जरूर ले आएं.

घर में लोग बड़े उत्सुक थे.

Quick Heal

Quick Heal Technologies Limited

Registered Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Viman Nagar, Pune - 411 014, India Phone: +91 (20) 6681 3232; E-mail: cs@quickheal.co.in; Website: www.quickheal.co.in Contact Person: Mr. Vinav Agarwal, Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

This post Buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 27, 2022 published on August 29, 2022 ("Public Announcement"), the letter of offer dated September 26, 2022 ("Letter of Offer") and the offer opening advertisement cum corrigendum to the Public Announcement dated September 30, 2022 published on October 1, 2022 ("Offer Opening Advertisement cum Corrigendum"), All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement, the Letter of Offer and the Offer Opening Advertisement cum Corrigendum

- Quick Heal Technologies Limited ("Company") had announced the Buyback of up to 50,00,000 (fifty lakhs) fully paid-up equity shares of ₹10/- (Rupees ten only) each ("Equity Shares"), representing up to 8.6% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as of March 31, 2022, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date being September 14, 2022 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share ("**Buyback Price**") for an amount aggregating up to ₹150 crore (Rupees one hundred and fifty crore only) ("Maximum Buyback Size", and such buyback of shares, the "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. and other incidental and related expenses ("Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represents 24.71% and 24.66% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the standalone and consolidated audited financial statements, respectively, of the Company as on March 31, 2022 (being the latest audited financial statements available as on the date of meeting of the board of directors of the Company held on July 21, 2022 to approve the proposal of Buyback).
- The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 or such other circulars or notifications or amendments as may be applicable, issued by SEBI
- The tendering period for the Buyback Offer opened on Tuesday, October 4, 2022 and closed on Tuesday, October 18, 2022.
- 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share. The total amount utilized in the Buyback is ₹150,00,00,000 (Rupees one hundred and fifty crore only) excluding Transaction Costs
- The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 26,639 valid bids for 1,05,95,231 (One crore five lakh ninety five thousand two hundred thirty one only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 2.12 times the maximum number of Equity

Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows No. of Equity Shares No. of Valid Bids **Total Equity Shares**

140.		reserved in the buyback		validity ichidolod	
1	Reserved category for Small Shareholders	7,50,000	25,483	24,80,425	330.72%
2	General Category for all other Equity Shareholders	42,50,000	1,156	81,14,806	190.94%
	Total	50,00,000	26,639	1,05,95,231	211.90%
	All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance				
rejection	on was dispatched by the Registrar through email, t	o the relevant Eligible Share	holders (who have their e-r	nail IDs registered with the	Company and the

Depositories) on October 27, 2022. In cases where the email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance / rejection

- were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on October 27, 2022. Further in cases where the delivery of emails was unsuccessful, the dispatch for the same was completed by the Registrar on October 28, 2022 2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on October 27, 2022. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were
- not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders. 2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on October 27, 2022. The unaccepted Equity Shares have been
- returned to respective Eligible Shareholders/custodian and lien has been removed by the Clearing Corporation on October 27, 2022. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback
- The extinguishment of 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before November 3, 2022. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company, pre-Buyback (i.e., as on the Record Date) and post-Buyback, is as under

Sr. No. **Particulars** Pre Buyback Post Buyback* No. of Equity Shares Amount (in ₹Crore) No. of Equity Shares Amount (in ₹Crore) 7,50,00,000 Equity Shares of '.50.00.000 Equity Shares of Authorised Share Capital 75.00 75.00 ₹10/- each ₹10/- each Issued, Subscribed and Fully Paid-5.80.72.901 fully paid-up 5.30.72,901 fully paid-up Equit 53.07 Equity Shares of ₹10/- each Shares of ₹10/- each Up Share Capital Subject to extinguishment of 50,00,000 Equity Shares


3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as under.

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)
1.	Kailash Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
2.	Sanjay Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
3.	Anupama Kailash Katkar	3,40,932	6.82	0.64
4.	Chhaya Sanjay Katkar	3,40,932	6.82	0.64
5.	Sequoia Capital India Investment Holdings III	3,10,921	6.22	0.59
6.	Jatinder Agarwal	59,310	1.19	0.11

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, (i.e., as on the Record Date being September 14, 2022) and post Buyback, is as under:

	P	re Buyback	Post Buyback		
Particulars	No. of Shares pre Buyback	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding post Buyback*	
Promoters and Promoter Group	4,22,63,177	72.78	3,87,86,353	73.08	
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	35,92,252	6.19	1,10,00,510		
Indian Financial Institutions/Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	525	0.00	1,42,86,548	26.92	
Public including other Bodies Corporate	1,22,16,947	21.03			
Total	5,80,72,901	100.00	5,30,72,901	100.00	

MANAGER TO THE BUYBACK



करें. हमारा परिचय पुराना है. वे कोई मेरे साथ राजी हो गया. हमारे अपमान में नहीं हंस रहे हैं; वे उस रास्ते पर जो आखिरी बंगला था वह विश्वविद्यालय के फिजिक्स के सिर्फ यह देखकर हंस रहे हैं कि आप प्रोफेसर का बंगला था. वहीं जाकर बड़ी प्रशंसा करके लाए हैं और वे हमें रास्ता समाप्त हो जाता था. तो उसी जानते हैं कि ये दोनों पागल हैं.

बाहर ही भीगने से लोग डर गए हैं. रास्ते की समाप्ति पर बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर हम दोनों भीगते थे. तो भीतर तो भीगने की बात ही कहां प्रोफेसर की पत्नी और बच्चे बडी उठती है! थोड़ा लाज-संकोच छोड़ो. दया खाते होंगे और जब भी वर्षा होती मीरा ने कहा है: लोग लाज छोड़ी! पद थी तो वे जरूर रास्ता देखते होंगे, क्योंकि घुंघरू बांध मीरा नाची रे! सब लोक जब भी हम पहंचते तो वे खिड़िकयों पर लाज छोड़कर नाची!

Ambit Private Limited

Address: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Tel: + 91 (22) 6623 3030; Fax: +91 (22) 6623 3100 Contact Person: Mr. Miraj Sampat / Mr. Jatin Jain Email: quickheal.buyback2022@ambit.co; Website: www.ambit.co SEBI Registration Number: INM000010585

Validity Period: Permanent Registration CIN: U65923MH1997PTC109992

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain

For and on behalf of the Board of Directors of Quick Heal Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kailash Katkar	Sanjay Katkar	Vinav Agarwal
Managing Director & CEO	Joint Managing Director & CTO	Compliance Officer
DIN: 00397191	DIN: 00397277	Membership No. A40751

Date: October 28, 2022











NOTICE FOR EXTENSION OF DUE DATE

This office has floated E-Tender No. SE/EHV/PC/T/Pune/T/T-04/22-23 RFx No.: 7000024921 for the Annual Rate Contract for survey work of various EHV lines proposed in STU plan, for System strengthening & for shifting /height raising/ reorientation of EHV lines for Highway crossing/Railway crossing & ORC consumers etc. under EHV Proj. Circle, Pune. The Due Date of Submission of the Bids is now extended up to 03.11.2022. The Technical Bid Opening will be done on 04.11.2022 and Commercial Bid Opening will be done on 07.11.2022.

Superintending Engineer (I/c) EHV PC, Pune

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग क्र.१, पुणे

ई-निविदा सूचना क्र. २७ सन २०२२-२०२३

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन (SWSM) यांचे मार्फत वर्ग ''ब'' मध्ये Empannelled गलेल्या कंत्राटदारांकडून जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत खालील कामाच्या निविदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग क्र.१, पुणे यांचेकडून मागविण्यात येत आहे.

अ.क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	जिल्हा	अंदाजित किंमत रु.
१	ढोक सांगवी पाणीपुरवठा योजना	शिरूर	पुणे	२२,२७,११,९७२/-
२	निरा शिवतक्रार पाणीपुरवठा योजना	पुरंदर	पुणे	२९,५२,५३,५०६/-

सदर निविदेचा सविस्तर तपशील **दि. २८/१**०/२०२२ पासून **www.mahatedners.gov** in या वेबपोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

निविदा प्रक्रिया कार्यक्रमाच्या सर्व तारखा www.mahatedners.gov.in या वेबपोर्टलक अपलोड करण्यात आलेल्या ऑनलाईन निविदा सूचनेनुसार राहतील

आरओसी-२०२२-२३/क्र.५/सी३६११ दिनांक- २७/१०/२०२२

दिनांक- १८/१०/२०२२

(एन.एन. भोई) कार्यकारी अभियंता

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग क्र.१ पुणे-४११००१

जाहीर नोटीस/समज

तमाम लोकांस सदर जाहीर नोटीसीने कळविण्यात येते की. आमचे अशील १ रोहिदास कान्हु लांडगे २) काशीनाथ दगडू केमसे ३) रामदास लक्ष्मण केमसे ४) शिवाजी नामदेव केमस[े] ५) नवनाथ नारायण केमस[े] यांचे गांव मौजे केमसेवाडी, ता. मळशी, जि. पुणे येथील स.नं. १६/७, १६/८, १६/९, १६/१०, १६/११, १६/१२, १६/१३ . १६/१४, या शेतजमिनीमध्ये गुरे चारणे, लाकूडफाटा, सरपण, गवत कापणे, झाडे विक्री करणे, इ. पद्धतीने सुमारे ५० वर्षांपासून आमचे अशील ताबेवहिवाटदार आहेत; परंतु अरुण चिंधु केमसे व इतर यांनी तहसीलदार पौड मुळशी पौड यांचेकडे ताबे वहिवाट असलेचा खोटा चुकीचा व बेकायदेशीर अर्ज करून तसेच तहसीलदार पौड मुळशी यांची दिशाभूल करून दिनांक ०७/०९/२०२१ रोजी निकाल मिळवून ७/१२ सदरी नावाची नोंद करून घेतली आहे व नाव असलेचा गैरफायदा घेऊन सदर मिळकती विक्री करण्याच्या तयारीत आहेत त्याविषयी आमचे अशील योग्य ती दिवाणी व फौजदारी कारवाई करीत आहेत तरी सदर मिळकतीसंदर्भात कोणीही, कोणत्याही प्रकारे कसलाही व्यवहार करू नये सदर मिळकतीसंदर्भात व्यवहार केल्यास आमचे अशिलावर बंधनकारक राहणार नाही यांची नोंद घ्यावी. कोणाचीही फसवणूक होऊ नये म्हणून सदर जाहीर नोटीस/समज दिली असे. दि २७/१०/२०२२

एस. जी. दराडे, ॲडव्होकेट

ऑफिस : वसंत कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नं. ९, माताळवाडी फाटा, भुगाव, ता. मुळशी, जि. पुणे. मोबा नं. ९६३७७४३३७१.

जाहीर नोटीस

तमाम लोकांना कळविण्यात येते की खालील परिशिष्टात नमुद केलेल्या जमीन मिळकतीचे गालक बाबुराव तुकाराम पवार मयत तर्फे वारस लक्ष्मीबाई बाबुराव पवार मयत तर्फे वारस १)सौ. वैशाली शिवाजी सावंत (लग्नाआधिचे नाव वैशाली रमेश पवार) २) मयत सौ. शितल संग्राम शिंदे, (लग्नाआधिचे नाव शितल रमेश पवार) ३) सौ. मोनिका अनिल भालेराव (लग्नाआधिचे नाव मोनिका रमेश पवार) ४) सौ. रश्मी रितेश कंडारे (लग्नाआधिचे नाव रश्मी रमेश पवार), ५) रजनी रमेश पवार ६) नितीन सुरेश पवार ७)सचिन सुरेश पवार ८) सौ. संगिता नारायण शिंदे (लग्नाआधिचे नाव संगिता रमेश पवार), ९) विमल सुरेश पवार सर्व रा. पुणे यांची वडिलोपार्जित मालकी हक्क वहिवाटीची आहे. सदर मिळकत ही पूर्णपणे निर्वेध व निजोखमी आहे. सदर मिळकतीवर इतर कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्के, हितसंबंध अधिकार, वहिवाट, कर्ज, जामीनकी, ताबा, गहाण, दान, लिज, साठेखत, करार, दावा, वाद, विसारपावती पोटगी, वारसा हक्क, हितसंबंध अगर अन्य कोणत्याही प्रकारचा बोजा असल्यास त्यांनी सदरील नोटीस प्रसिद्ध झालेपासून २१ (एकवीस) दिवसांचे आत मूळ कागदपत्रांनिशी समक्ष येऊन खालील पत्यावर लेखी हरेकत देवून आमचे अशिलांकरिता आमची खात्री पटवून दयावी. सदर मुदतीत कोणाचीही हरकत न आल्यास सदरची मिळकत ही निर्वेध व निजोखर्मे आहे असे समजून व कोणाचाही कसलाही हक्क, हितसंबंध असल्यास तो त्यांनी जाणिवपूर्वक सोडून दिला आहे असे समजून आमचे अशिल पुढील व्यवहार पूर्ण करतील व त्यानंतर कोणाचीही. कसलीही तकार चालणार नाही.

परिशिष्टः तुकडी पुणे, पोटतुकडी तालुका हवेली, मे. सह दुय्यम निबंधक सो. हवेली यांचे अधिकार कक्षेतील तसेच पुणे महानगरपालिका यांचे हद्दीतील गाव मौजे पाषाण येथील खालील मिळकती : **अ) स.नं. ९२०, हिस्सा नं ५/२** यांसी एकुण क्षेत्र 00 हे. 0२ आर यांसी 00 रु. 0४ पैसे ही जिमन मिळकत यांसी चतु:सिमा येणेप्रमाणे :- पुर्वेस- श्री. पोपट सदाशिव कोकाटे यांची मिळकत, दक्षिणेस- ओढा, पश्चिमेस : बहिरू पिराजी कोकाटे यांची मिळकत उत्तरेस- बहिरू पिराजी कोकाटे यांची मिळकत, **ब) स.नं. ११६, हिस्सा नं २/२** यांसी एकुण क्षेत्र 00 हे. 0२ आर यांसी 00 रु १२ पैसे ही जिमन मिळकत यांसी चतुःसिमा येणेप्रमाणे - पुर्वेस- श्री. विठ्ठल धोंडिबा सातपुते यांची मिळकत, दक्षिणेस- बहादुर भाई यांची मिळकत गश्चिमेस : स.नं. १२० कोकाटे यांचे सामाईक माळ, उत्तरेस : पाषाण सुस रोड. येणेप्रमाणे जिमन मिळकत व त्यातील तदंगभुत, जल, तरू काष्ट, पाषाण व जाणेयेणेचे हक्कासहित निधी निक्षेपासह जिमन मिळकत जाहीर नोटीस दिली असे. पुणे दि. २८/१०/२०२२.

खरेदी घेणारतर्फे. लिना जीवनकुमार बनसोडे, ॲडव्होकेट.

ऑफीस :पी-२बी, हेमी गार्डन को. ऑफ. हौ.सो., दत्तनगर, आंबेगाव बु, पुणे-४११०४६. मो. ८४८२९९४३२५

जाहीर नोटीस

तमाम लोकांस या जाहीर नोटीशीने कळविणेत येते की. खालील परिशिष्टांत नमूद केलेली मिळकत, सर्वश्री.बाजीराव मारुती वहिले, ज्ञानेश्वर मारुती वहिले, (वरील दोघेही स्वत:साठीं व आपापल्या एकत्र हिंदु कुटुंबाचा कर्ता व पुढारी म्हणून) व श्री. राजु सुदाम तापकीर व इतर (२१.९० आरचे मालक) व श्री. राजु सुदाम तापकीर (०८.१० आरचे मालक), (असे वरील दोन्हींचे मिळून एकूण क्षेत्र ३० आर) यांचे मालकीहक्क व स्वतः प्रत्यक्ष कब्जेवहिवाटीची असून, त्यांनी सदरील मिळकत, आमचे अशिलांस अनुक्रमे विकसन व विक्री हक्काने देणेचे ठरवून तसेच कायमस्वरूपी खुषखरेदी देण्याचे ठरवून,त्याप्रमाणे विद्यमान मालकांनी, भाग भरणा रक्कम स्वीकारून, आमचे अशिलांस तसा कायदेशीर दस्तही लिहून दिलेले आहेत. असे लिहून दिलेले दस्त आजमितीसही अंमलांत आहेत.

सदरील मिळकत पूर्णतः निर्वेध, निजोखमी, निष्कर्जी व बोजारहित असुन, विद्यमान मालकांस, सदरील मिळकतीचे पूर्ण मार्केटेबल टायटल आहे, असा भरवसा व खात्री त्यांनी आमचे अशिलांस दिलेली आहे. तथापि सदरील मिळकतीवर, विद्यमान मालकांचे व्यतिरिक्त अन्य कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा गहाण, दान, लीन, लीज, पोटगी, अन्नवस्त्र, कोर्टवाद, चार्ज, वाटप, दावा, वारसाहक्क, मृत्यूपत्र, वहिवाट, अदलाबदल, करार, खरेदीखत, मुखत्यार, विरोधी कब्जा अगर तत्सम वा अन्य केाणत्याही प्रकारचा हक्क, अधिकार, हितसंबंध, वगैरे असल्यांस, संबंधीतांनी सदरील नोटीस प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत, मूळ कागदपत्रांनिशी आमचे खालील पत्त्यावर येवून खात्री करून द्यावी व आपली हरकत नोंदवावी. सद-रील मदतीमध्ये अशी कोणतीही कागदोपत्री पुराव्यासह हरकत न आल्यांस, सदरील मिळकत पूर्णत: निर्वेध, निजोखमी व निष्कर्जी असून, विद्यमान मालकांस तिचे पूर्ण मार्केटेबल टायटल आहे, कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा काही एक हक्क, अधिकार व हितसंबंध नाही. असल्यांस, तो त्यांनी जाणीवपूर्वक सोडून दिलेला आहे, असे समजून आमचे अशील ठरलेप्रमाणे पुढील व्यवहार पूर्ण करतील. कोणतीही मुदतबाह्य हरकत विचारात घेतली जाणार नाही

परिशिष्ट- तुकडी पुणे, पोटतुकडी, तालुका - हवेली, मे. सब-रजिस्ट्रारसाहेब, हवेली (पुणे), यांचे कार्यक्षेत्रातील जिल्हा - पुणे, तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मुलकी गांव मौजे - ड्ड्ळगांव, येथील निवासी झोनमधील बांधकामयोग्य जमीन मिळकत:-

गट नं. १२०, यांसी एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर, ३० आर, यांसी आकार

रक्कम रु.०१.०० यांसी चत्:सीमा खालीलप्रमाणे:-पूर्वेस - लागून १८ मीटर रुंदीचा सामाईक रस्ता,

दक्षिणेस - लागून गट नं.११९,

पश्चिमेस - लागून गट नं. १२५,

उत्तरेस - लागून गट नं.१२१,

येणेप्रमाणे चतु:सीमापूर्वक मिळकत, अटॅचड् हक्क, अधिकार व हितसंबंधासहित दरोबस्त,या नोटीशीचा विषय आहे. पुणे, तारीख -२८/१०/२०२२,

दादासाहेब वि. नाणेकर,

विकसकातर्फे व खरेदीदारातर्फे ॲडव्होकेट,

पत्ता-शिवालय अपार्टमेंट, फ्लॅट नं. २०२,पहिला मजला, ३८०, शिवाजीनगर, जंगली महाराज मंदिरासमोर, पुणे-४११००५,

फोन-२५५३३९४९, २५५३९७४७

ई-मेलः dadasahenanekar@gmail.com

(पा. क्र. २२१००९६५६१)

तमाम लोकांस कळविण्यात येते की. खालील परिशिष्टांत वर्णन केलेल्या मिळकतींचे विद्यमान मालक श्री सार्जन मास्ती जमदाडे यांचे मालकी हक्क प्रत्यक्ष ताबे वहीवाटीची असून, सदर मिळकतीबाबत विद्य यांचे मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र करण्याबाबत जाहीर नोटीस देण्यास सांगितल्यावरून व सदर मिळकत ही निर्वेध व निजोखमी असल्याचा भरवसा त्यांनी आमचे अशिलांस दिला आहे. तरी सदरील मिळकतीवर कोणाचा कसल्याही प्रका मालकी हक्क दावा विसार साठेखत खरेदीखत बक्षीस चोळी-बांगडी पोटगी लीज लीन हितसंबंध अगर बोज ल्यास त्यांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून सात (०७) दिवसांचे आत सर्व मुळ कागदपत्रांनिशी प्रत्यक्ष भेट घेवन तशी खात्री पटवन द्यावी. व लेखी हरकत नोंदवावी. अन्यथा सदर मिळकतीवर कोणाचाही, कोणत्याही प्रकारचा नन्तु राजा खाना रूपुत्र बाना : राज्य रूपुत्र गाया हुए । जन्म राज्य गाया गाया हात्र गाया हुए अनार प्रकार हुनक हितसंख माही व असरत्यास तो त्यांनी जाणीव पुर्वक सोडून दिला आहे असे समजून आमचे अशिल सद मिळकतीचा विक्री व्यवहार पुर्ण करतील, नंतर कोणाचीही, कसलीही तक्रार चालणार नाही याची नोंद घ्यावी.

परिशिष्ट- तुकडी पुणे, पोटतुकडी, तालुका - मुळशी, जिल्हा- पुणे, पंचायत समिती मुळशी व जिल्हा परिषद यांचे हद्दीतील व मे. दुय्यम निवंधक मुळशी, यांचे कार्यक्षेत्रातील गांव मौजे ग्रामपंचायत ''दत्तवाडी'' येथील स्वेत , 00 केटर 03 आर ही मिळकत. यांसी चतुः सका ायस्त्रमान माराक वाच खर्चा माराका वावस्ववादाया सुष् स्वेत , 00 केटर 03 आर ही मिळकत. यांसी चतुःसमा पुढीलगुगोः, पूर्वेस: मर्के नें, ८४/ १४ विकी ठवंदीत मिळकत, पश्चिमेस:-श्री. नागनाथ बळीराम तुगावे यांची मिळकत., दक्षिणेस: श्री. किसन नारायण जाधव यांची मिळकत, उत्तरेस:- २० फुटी रुंदीचा रस्ता. येणेप्रमाणे मिळकत, प्रस्तुत नोटीसीचा विषय असे. दि. २७.१०.२०२२

विजय रामा राक्षे. ॲडव्होकेट.

गंगा हाईटस. दुय्यम निबंधक मुळशी क्र. २ कार्यालयाशेजारी मारूंजी रोड, हिंजवडी पूणे ५७. मोबाइल.९९२२९२०२०३.

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE that MRS. RAJNI SHANKAR KHATWANI having address at SHATRAJ Plot No. 83/C, Mira Baug Road, Santacruz (West) Mumbai - 400054 is the holder/ Owner of the demarcated portion of land adm. 5 ares out of total land adm. 66R out of S. No 38/4 of Village Ghorpadi, Pune.

The said Owner had purchased the said land from **Mr. Baljit singh** Arora and Mrs. Manjeet Kaur Arora vide Sale Deed dated 19.4.1989, registered at Serial No. 2999/1997 (old No. 6114/ 1989) with the Sub Registar, Haveli 2 Pune. The Owner has represented that the original of the Sale Deed has been lost or misplaced and the same is not traceable despite due and diligent search and the same is not deposited with any person with intention to create security, mortgage or charge thereon or otherwise.

am publishing this notice to intimate the public of the fact of the lost original Sale Deed bearing Registration No. 2999/1997 (old No 6114/ 1989) with the Sub Registar, Haveli 2 Pune and calling upor any person/s having custody of the said original sale Deed to notify the same in writing to the undersigned within 14 days of the

Pune dated this 28th day of Oct 2022. Adv. Chirag Oswal Oswal Advocates

1212, Maitri Angan, Shukrawar Peth, Subhash Nagar Lane 4, Pune 411002

जाहिर नोटीस

तमाम लोकांस प्रस्तत जाहीर नोटिसीव्दारे कळविण्यात येते की . खालील परिशिष्टात वर्णन केलेली जिमन मेळकत **इदायणी टिश्य कल्चर प्रा. लि.** या संस्थेचे मालकी वहिवाटीची असन, महसल दप्तरी त्यांच गवाची नोंद आहे. सदर जमिन मिळकत विद्यमान मालकानी **वर्ल्ड फुडस् एल एल पी**. या संस्थेच्य समतीने आमचे अशिलांस कायम खुशखरेदीने देण्याचे मान्य व कबूल केलेले असून, त्याप्रित्यर्थ आमच अशिलाकडून विसार रक्कम देखील स्विकारलेली आहे. सदर जमिन मिळकत पूर्णतः निर्वेध, निजोखमी व बोजारहित असल्याचा तसेच तिचेवर अन्य कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध नसल्याचा भरवसा आमचे अशिलास देण्यात आलेला आहे.

तरी सदर जमिन मिळकतीमध्ये अन्य कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध असल्यास प्रस्तूत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत खालील नमूद पत्त्यावर मूब कागदेपत्रानिशी प्रत्यक्ष येऊन आमची खात्री पटेवून दयावी. अन्यथा सदर जमिन मिळकेत पुर्णपणे निर्वेधे निजोखमी असल्याचे समजून, आमचे अशिल पुढील खरेदी व्यवहार पूर्ण करतील. तद्नंतर कोणाचीहं कोणतीही हरकत ग्राह्य धरली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. तसेच परस्पर कोणत्याही वर्तमानपत्रामध्य ग्रसिद्ध करून घेतलेली हरकतही विचारत घेतली जाणार नाही, याचीही नोंद घ्यावी.

परिशिष्ट : तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका खेड, जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती तालुका खेड यांच हद्दीतील, तसेच मे. दुय्यम निबंधक साहेब खेड याचे कार्यक्षेत्रातील **गाव मौजे मरकळ** येथिल औदयोगिव वेभागातील जमिन **गट न.१२४६** यासी क्षेत्र ०१ हे.४४ आर अधिक पोट खराब क्षेत्र ०० हे १० आर अर रकुण क्षेत्र ०१ हे.५४ आर पैकी विद्यमान मालकाचे मालकी वहिवाटीतील क्षेत्र **०० हे. ७८.२७ आर** (<mark>७८२७ **चौ.मी.) ही जमिन मिळकत,** यांसी चतुःसीमा पुर्वेस : गट नं. १२४६ पैकी उर्वरित मिळकत</mark> . रक्षिणेस : गट नं. १२४५, पश्चिमेस : गट नं. १२४४ पैकी क्लोराईड मेटल्स यांची मिळकत, उत्तरेस : गट . १२४४. येणेप्रमाणे चतुःसीमापूर्वक जमिन मिळकत त्यामध्ये येणेजाण्याचे वहिवाटीचे हक्कांसह दरोबस्त अशी मिळकत. येणेप्रमाणे जाहीर नोटीस. िनतीन मुनोत ॲन्ड असोसिएटस् पूणे, दिनाक : २९ १० २०२२

ऑडव्होकेटस ऑफिस : एफ/२२, दुसरा मजला, शातीकुज, साधु वासवानी चौकाजवळ, जी.पी.ओ. समोर, पुणे : ४११००१ Mail : advnrmunotassociates@gmail.com

जाहिर नोटीस

ामाम लोकास प्रस्तत जाहीर नोटिसीव्दारे कळविण्यात येते की. खालील परिशिष्टात वर्णन केलेर्ल जमिन मिळकत **श्री. मनिष विमलकुमार जैन** याचे मालकी वहिवाटीची असून, सदर जमिन मिळकर विद्यमान मालकानी आमचे अशिलांस कायम खुशखरेदीने देण्याचे मान्य व कबुल केलेले असुन याप्रित्यर्थ आमचे अशिलाकडुन विसार रक्कम देखील स्विकारलेली आहे. सदर जिमन मिळकर पुर्णतः निर्वेध, निजोखमी व बोजारहित असल्याचा तसेच तिचेवर अन्य कोणाचाही कोणत्यार्ह . प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध नसल्याचा भरवसा आमचे अशिलास देण्यात आलेला आहे.

तरी सदर जमिन मिळकतीमध्ये अन्य कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबध असल्यास प्रस्तूत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत खालील नमूद पत्त्याव नूळ कागदपत्रानिशी प्रत्यक्ष येऊन आमची खात्री पटवून दयावी. अन्यथा सदर जमिन मिळकत . र्णपणे निर्वेध व निजोखमी असल्याचे समजून, आमचे अशिल पुढील खरेदी व्यवहार पूर्ण करतील . दुनंतर कोणाचीही कोणतीही हरकत ग्राह्य धरली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. तसेच परस्प होणत्याही वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करून घेतलेली हरकतही विचारत घेतली जाणार नाही. याचीह नोंद घ्यावी

परिशिष्ट : तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका खेड, जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती तालुका खेड याचे हद्दीतील, तसेच मे. दय्यम निबंधक साहेब खेड याचे कार्यक्षेत्रातील **गाव मौजे मरकळ** येथिट औदयोगिक विभागातील जमिन **गट न. १२४७** यासी क्षेत्र ०० हे ८१ आर अधिक पोट खराब क्षेत्र ० हे. ०३ आर असे एकुण **क्षेत्र ०० हे.८४ आर ही जमिन मिळकत**, यासी चतुःसीमा पुर्वेस : गट न १२२९, दक्षिणेस : गॅट नं. १२४४, पश्चिमेस : गट नं. १२४४, उत्तरेस : गॅट नं. १२४८. येणेप्रमाप चतुःसीमापूर्वक जमिन मिळकत त्यामध्ये येणेजाण्याचे वहिवाटीचे हक्कांसह दरोबस्त अशी मिळकत येणेप्रमाणे जाहीर नोटीस. नितीन मुनोत ॲन्ड असोसिएटस् णो टिनांक : २९ १० २०

ऑडव्होकेटस् ऑफिस : एफ/२२, दुसरा मजला, शातीकुज, साधु वासवानी चौकाजवळ,

जी.पी.ओ. समोर, पुणे : ४११००१ Mail : advnrmunotassociates@gmail.com जाहिर नोटीस

नमाम लोकांस प्रस्तत जाहीर नोटिसीद्धारे कळविण्यात येते की. खालील परिशिष्टात वर्णन केलेर्ल जमिन मिळकत <mark>श्रीमती सरस्वती काळुराम लोखंडे, श्री. दत्तात्रय काळुराम लोखंडे, श्री. संदीप</mark> **काळुराम लोखडे, श्री. सतोष काळुराम लोखडे आणि सौ. सुवर्णा वसम वाँघुले** याचे समाईक मालकी ग्रहिवाटीची असून, महसुल दप्तरी त्याचे नावाची नोंद आहे. सदर जमिन मिळकत विद्यमान मालकानी वर्ल्ड फुडस् एल एल पी या संस्थेच्या समतीने आमचे अशिलास कायम खुशखरेदीने देण्याचे मान्य व कबल केलेले असन त्याप्रित्यर्थ आमचे अशिलांकडन विसार रक्कम देखील स्विकारलेली आहे. सदर जमिन मिळकत पुर्णतः निर्वेध, निजोखमी व बोजारहित असल्याचा तसेच तिचेवर अन्य कोणाचार्ह कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध नसल्याचा भरवसा आमचे अशिलास देण्यात आलेला आहे. तरी सदर जमिन मिळकतीमध्ये अन्य कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध असल्यार प्रस्तूत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाचे आत खालील नमूद पत्त्यावर मूट् कागदेपत्रानिशी प्रत्यक्ष येऊन आमची खात्री पटवून दयावी. अन्यथा सदर जमिन मिळकेत पुर्णपणे निर्वेष ा निजोखमी असल्याचे समजून, आमचे अशिल पुढील खरेदी व्यवहार पूर्ण करतील. तद्नंतर कोणाचीर्ह कोणतीही हरकत ग्राहय धरली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी तसेच परस्पर कोणत्याह ार्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करून घेतलेली हरकतही विचारत घेतली जाणार नाही, याचीही नोंद घ्यावी. परिशिष्ट : तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका खेड, जिल्हा परिषद पुणे, पचायत समिती तालुका खेड याचे हद्दीतील, तसेच में द्रय्यम निबंधक साहेब खेड याचे कार्यक्षेत्रातील **गाव मौजे मरकळ** येथिल औदयोगिव वेभागातील जमिन **गट न. १२४८** यासी क्षेत्र ०० हे ५० आर अधिक पोट खराब क्षेत्र ०० हे ०२ आर असे एकुण **क्षेत्र ०० हे. ५२ आर ही जमिन मिळकत,** यासी चतुःसीमा पुर्वेस ः गट न. १२२९, दक्षिणेस ः गट १२४७, पश्चिमेस : गट न. १२४४, उत्तरेस : गट नं. १२४९. येणेप्रमाणे चतुःसीमापूर्वक जमिन मिळकत त्यामध्ये येणेजाण्याचे वहिवाटीचे हक्कासह दरोबस्त अशी मिळकत. येणेप्रमाणे जाहीर नोटीस. पूणे, दिनाक : २९ १० २०२२

िनतीन मुनोत ॲन्ड असोसिएटस् ऑडव्होकेटस

ऑफिस : एफ/२२, द्सरा मजला, शातीकुज, साधु वासवानी चौकाजवळ जी पी ओ. समोर, पुणे : ४११००१ Mail : advnrmunotassociates@gmail.com

जाहीर नोटिशीस उत्तर

दैनिक प्रभात या वर्तमानपत्राच्या दिनांक ३०/०९/२०२२ रोजीच्या आवृत्तीमध्ये ॲडव्होकेट विक्रम अमोलिक यांनी गाव मौजे पिसोळी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील मिळकती सर्व्हे नंबर ४४/३/५/१, ४४/३/५/२, ४४/३/५/१/१, ४४/३/५/१/२ वगैरे मिळकतीचे संदर्भात प्रसिद्ध केलेली जाहीर नोटीस आमचे अशील श्री. तानाजी लक्ष्मण काळभोर, रा. पिसोळी, ता. हवेली, जि. पुणे यांचे वाचण्यात आली. सदर नोटिशीस आमचे अशिलांनी उत्तर देण्याचे सांगितलेवरून, दिलेल्या माहिती व कागदपत्रांवरून ॲडव्होकेट विक्रम अमोलिक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर नोटिशीस उत्तर देण्यात येते की-

सदरील दिनांक ३०/०९/२०२२ रोजीचे जाहीर नोटीसमध्ये केलेले सर्व आरोप व कथने ही लोकांची दिशाभुल करणारी आणि आमचे अशिलांची जाहीररीत्या बदनामी करण्याचे हेतू व उद्देशाने प्रसिद्ध केल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविकपणे ॲडव्होकेट विक्रम अमोलिक यांचे अशील श्री. रमेश परशराम भाटीया यांनी त्यांचे मालकीची मिळकत स.नं. ४४/३/५/२ बाबत त्यांच्या असणाऱ्या तथाकथित हक्क व अधिकारांचे संदर्भात पूणे येथील मे. दिवाणी न्यायालयात स्पे.म्.नं. १००८/२०२२ हा दावा ठराव व ताकिद निरंतरसाठी दाखल केलेला असून त्यामध्ये मे. कोर्टाने सदर मिळकतीबाबत ''जैसे थे'' परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिलेला होता, परंत् आमचे अशिलांनी मे. कोर्टात नि. १८ नुसार केलेल्या अर्जावरून मे. कोर्टाने सदरील 'जैसे थे'' परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दि. १८/०६/२०२२ रोजीचे ह्कुमानुसार रद्द केलेला आहे. सदरील दावा मे. कोर्टात पुढील कामकाजासाठी प्रलंबित असतांना जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यास कायदेशीर कारण घडलेले नसल्याने, केवळ आमचे अशिलांची प्रतिष्ठा व नावलौकिकाची बदनामी करण्याच्या बेकायदेशीर हेतू व उद्देशाने जाणीवपूर्वक सदरची जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रस्तृत जाहीर नोटीसी उत्तरद्वारे ॲडव्होकेट विक्रम अमोलिक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर नोटीसला आमचे अशिलांना खुलासा/उत्तर प्रसिद्ध करणे भाग पडलेले आहे. त्यामुळे आमचे अशील ॲडव्होकेट विक्रम अमोलिक यांचे अशिलानविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करत असून, लोकांची दिशाभूल व गैरसमज होऊ नये म्हणून प्रस्तुत्वे जाहीर उत्तर आमचे अशिलांनी प्रसिद्ध केले असे. पुणे, दि. २८/१०/२०२२

विशाल शिवले, ॲडव्होकेट

फ्लॅट नं. ३०४, आशीर्वाद १५६/२, मंगळवार पेठ, पारगे चौक, पुणे-४११०११. (महाराष्ट्र). ई-मेल vishhal24yahoo.com

जाहीर नोटीस तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, खालील परीशिष्टात वर्णन केलेली जमीन मिळकत हि श्री. गणेश विनोद यांच्या खरेदी मालकीची, ताबे-वहिवाटीची असून त्यांनी सदर मिळकत आमचे अशिलांना कायमस्वरूपी तबदिल/हस्तांतरित करण्याबाबतची/खरेदी देण्याबाबतची बोलणी सुरु आहे. सदर मिळकत हि निर्वेध व निजोखमी असल्याचा भरवसा नमूद विद्यमान जमीन मालकांनी तसेच विकसकांनी आमचे अशिलांना दिलेला आहे. तरी सदर जमीन मिळकतीवर कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे गहाण, दान, बक्षिस, लीन, लीज, साठेखत, करार अन्य कोणत्याही प्रकारचे हक्क. हितसंबंध व अधिकार असल्यास त्यांनी सदरील जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झालेपासून **पंधरा (१५)** दिवसाच्या आतमध्ये सर्व कागदोपत्री पुराव्यासह खाली दिलेल्या पत्यावर भेट्न आमचे अशिलांतर्फे आमची खात्री पटवुन द्यावी, अन्यथा सदर जमीन मिळकतीवर कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे हक्क, हितसंबंध, अधिकार नाहीत व असल्यास ते त्यांनी जाणीवपूर्वक सोडून दिलेले आहेत, असे समजून आमचे अशील सदरचा व्यवहार पूर्ण करतील. सदर अवधीनंतर कोणाचीही. कोणत्याही प्रकारची तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी

परीशिष्ट : तुकडी- पुणे, पोट- तुकडी, ता. मावळ, जि. पुणे, यांचे हद्दीतील, तसेच सह दुय्यम निबंधक, मावळ, पुणे यांचे स्थळिसमेतील आणि जिल्हा परिषद, जिल्हा पुणे, तसेच तालुका पंचायत समिती, मावळ, पुणे यांचे हद्दीतील गाव **मौजे कातवी**, पुणे र्येथील गट नं. ७१, यांसी क्षेत्र ०४ हेक्टर १९ आर अधिक पोट खराबा ०० हेक्टर २४.६० आर असे एकुण क्षेत्र ०४ हेक्टर ४३.६ आर यासी आकार ०३ रुपये ७५ पैसे, या पैकी ०० हेक्टर ०५ आर म्हणजेच ५०० चौ. मी. यासी एकत्रित चतुः सिमा खालीलप्रमाणे - पुर्वे स- श्री. अविनाश ढोबळे यांची मिळकत. दक्षिणेस- गट नें. ७१ पैकी उर्वरित मिळकत पश्चिमेस - गट नं. ७१ पैकी उर्वरित मिळकत, उत्तरेस- सदरील गट पैकी रस्ता, येणे प्रमाणे चतुःसीमापूर्वक जमीन मिळकत, त्यातील झाड, झाडोरा, जल, तरु, निधी, निक्षेप, काष्ठ, पाषाण, दगड, माती इ. तदंगभूत वस्तुंसहित, वहिवाटीचे तसेच त्यामध्ये निरंतर जाणे येणेचे रस्त्याचे, इजमेंटचे व इतर सर्व हक्कासह दरोबस्त अशी जमीन मिळकत या जाहीर नोटीसचा विषय असे. पुणे, दिनांक - १९/०९/२०२२.

रामचंद्र बं. कळसाईत. ॲडव्होकेट.

ऑफिस नं. १५, तळमजला, शितोळे एम्पायर, फेमस चौक, नवी सांगवी, पुणे ४११०२७. मोबाईल नं. ९७६२४३५४९८.

 \approx **MAHA**TRANSCO

TENDER NOTICE

MSETCL invites online bids (E-Tender) from registered contractors/agencies on MAHATRANSCO E-Tendering website https://srmetender.mahatransco.in for the following work. Tender No.: -15/2022-23 RFx No.: 7000024874

Work: Tender for the work of supply of electrical rubber hand gloves, safety belts & safety helmets to various EHV Sub-stations and Subd EHV O&M Div., Baramati, Tender Amount: Rs. 5.00.000/-, EMD: Rs. 5.000/-. Tender Fees: Rs. 500/- +GST Download of Tender Document: From dt. 28.10.2022 to dt. 03.11.2022 up to 23:59:00 Hrs Bid Opening: Dt. 04.11.2022 after 11:00 Hrs (Tech Bid) dt.04.11.2022 after 15:00 Hrs (Price bid). For further details, visit our website https://srmetender.mahatransco.in and open above RFx for downloading tender document, schedules and

Executive Engineer EHV O&M Div., Baramati

जाहीर नोटीस

तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, गाव मौजे हिंजवडी,तालुका मुळशी,जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं. २२१/२,२२२/१,२२२/४,२२२/५/१ पार्ट, २२२/५/२ पार्ट, २२३/१,े २२३/३, २२३/४, २२३/५, २२४/१, २२४/२/१, २२४/२/२, २२४/३, २२४/४, २२४/५ २२४/६, २२४/७, २२५/१/१अ, २२५/१/१ब, २२५/१/१क, २२५/१/२, २२५/२, २२५/३ २२६/१, २२६/२ यांसी एकूण जमीन क्षेत्र १२०५९६ चौ.मी. पैकी जमीन क्षेत्र १०२८५३.९० चौ.मी. या मिळकतीवर बांधलेल्या गोदरेज २४ या प्रकल्पामधील बिल्डींग नंबर डी ४ मधील आठव्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ८०३ यासी क्षेत्र ५०.७६ चौ.मी. कारपेट एरिया व एक्सक्लसिव्ह एरिया यासी क्षेत्र १५.२४ चौ.मी(पैकी बाल्कनी एरिया क्षेत्र १०.६८ चौ.मी. आणि टेरेस एरिया यासी क्षेत्र ४.५६ चौ.मी.)असे एकूण क्षेत्र ६६.०० चौ.मी. व एक पार्कींग स्पेससह ही श्री. प्रवीण रामिकशोर सिकची, रा. अशोक टॉवर्स, डॉ. बी आंबेडकर रोड, परेल, मुंबई यांच्या खरेदी मालकीची असून सदर फ्लॅट मिळकत आमचे अशिलांस खरेदी देण्याबाबत विद्यमान मालक व आमचे अशिल यांचेत बोलणी चालू आहे. सदर फ्लॅट मिळकत निर्वेध व बोजारहीत असल्याचा भरंवसा सदर मालकांनी आमचे अशिलांस दिलेला आहे. तरी सदर फ्लॅट मिळकतीवर अन्य कोणाचाही हक्क . हितसंबंध असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी या नोटीसीचे प्रसिद्धीपासून **१० दिवसांचे** आत आम्हांस लेखी कळवून मूळ कागदपत्रांनिशी खात्री करून द्यावी, अन्यथा आमचे अशील पुढील व्यवहार पूर्ण करतील. त्यानंतर कोणाचीही कसल्याही प्रकारची तक्रार चालणार नाही, याची नोंद घ्यावी. ही जाहीर नोटीस दिली असे.

कैलास काळुराम साखरे, ॲडव्होकेट

पूणे दि. २८/१०/२०२२

ऑ. : गंगा इस्टेट, मे. दुय्यम निबंधक, मुळशी नं. २ कार्यालयाशेजारी, हिंजवडी - मारुंजी रोड, हिंजवडी, पुणे ५७. मो. : ९३२५०९६९०० (पा. क्र. २२१००९६५६५

Quick Heal

Security Simplified

Quick Heal Technologies Limited

Registered Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Viman Nagar, Pune - 411 014, India Phone: +91 (20) 6681 3232; E-mail: cs@quickheal.co.in; Website: www.quickheal.co.in Contact Person: Mr. Vinav Agarwal, Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

This post Buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated August 27, 2022 published on August 29, 2022 ("Public Announcement"), the letter of offer dated September 26, 2022 ("Letter of Offer") and the offer opening advertisement cum corrigendum to the Public Announcement dated September 30, 2022 published on October 1, 2022 ("Offer Opening Advertisement cum Corrigendum"), All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement, the Letter of Offer and the Offer Opening Advertisement cum Corrigendum.

- Quick Heal Technologies Limited ("Company") had announced the Buyback of up to 50,00,000 (fifty lakhs) fully paid-up equity shares of ₹10/- (Rupees ten only) each ("Equity Shares"), representing up to 8.6% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as of March 31, 2022, from the Shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date being September 14, 2022 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share ("Buyback Price") for an amount aggregating up to ₹150 crore (Rupees one hundred and fifty crore only) ("Maximum Buyback Size", and such buyback of shares, the "Buyback"). The Maximum Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. and other incidental and related expenses ("Transaction Costs"). The Maximum Buyback Size represents 24.71% and 24.66% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the standalone and consolidated audited financial statements, respectively, of the Company as on March 31, 2022 (being the latest audited financial statements available as on the date of meeting of the board of directors of the Company held on July 21, 2022 to approve the proposal of Buyback).
- 2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 or such other circulars or notifications or amendments as may be applicable, issued by SEBI
- The tendering period for the Buyback Offer opened on Tuesday, October 4, 2022 and closed on Tuesday, October 18, 2022 DETAILS OF BUYBACK
- 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹300/- (Rupees three hundred only) per Equity Share. The total amount utilized in the Buyback is ₹150,00,00,000 (Rupees one hundred and fifty crore only) excluding Transaction Costs.
- 2.3 The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 26,639 valid bids for 1,05,95,231 (One crore five lakh ninety five thousand two hundred thirty one only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 2.12 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
1	Reserved category for Small Shareholders	7,50,000	25,483	24,80,425	330.72%
2	General Category for all other Equity Shareholders	42,50,000	1,156	81,14,806	190.94%
	Total	50,00,000	26,639	1,05,95,231	211.90%

- 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance rejection was dispatched by the Registrar through email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company and the Depositories) on October 27, 2022. In cases where the email IDs were not registered with the Company or Depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on October 27, 2022. Further in cases where the delivery of emails was 2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on October 27, 2022. The Clearing Corporation has
- made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders. 2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat account on October 27, 2022. The unaccepted Equity Shares have been
- returned to respective Eligible Shareholders/custodian and lien has been removed by the Clearing Corporation on October 27, 2022. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback.
- The extinguishment of 50,00,000 (Fifty lakh only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before November 3, 2022.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN The capital structure of the Company, pre-Buyback (i.e., as on the Record Date) and post-Buyback, is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
		No. of Equity Shares	Amount (in ₹Crore)	No. of Equity Shares	Amount (in ₹Crore)
1.	Authorised Share Capital	7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	75.00	7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	75.00
2.	Issued, Subscribed and Fully Paid- Up Share Capital	5,80,72,901 fully paid-up Equity Shares of ₹10/- each	58.07	5,30,72,901 fully paid-up Equity Shares of ₹10/- each	53.07

3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)
1.	Kailash Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
2.	Sanjay Sahebrao Katkar	13,97,480	27.95	2.63
3.	Anupama Kailash Katkar	3,40,932	6.82	0.64
4.	Chhaya Sanjay Katkar	3,40,932	6.82	0.64
5.	Sequoia Capital India Investment Holdings III	3,10,921	6.22	0.59
6.	Jatinder Agarwal	59,310	1.19	0.11

	Pre Buyback		Post Buyback	
Particulars	No. of Shares pre Buyback	% to existing share capital	No. of Shares post Buyback*	% holding post Buyback*
Promoters and Promoter Group	4,22,63,177	72.78	3,87,86,353	73.08
Foreign Investors (OCBs/ FIIs/ NRIs/ Non-residents/ Non-domestic companies and foreign mutual funds)	35,92,252	6.19	1,42,86,548	26.92
Indian Financial Institutions/Banks/ Mutual Funds/ Govt. Companies	525	0.00		
Public including other Bodies Corporate	1,22,16,947	21.03		
Total	5 80 72 901	100 00	5 30 72 901	100 00

* Subject to extinguishment of 50,00,000 Equity Shares. MANAGER TO THE BUYBACK



Ambit Private Limited Address: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Tel: + 91 (22) 6623 3030; Fax: +91 (22) 6623 3100 Contact Person: Mr. Miraj Sampat / Mr. Jatin Jain Email: quickheal.buyback2022@ambit.co; Website: www.ambit.co SEBI Registration Number: INM000010585 Validity Period: Permanent Registration

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

CIN: U65923MH1997PTC109992

For and on behalf of the Board of Directors of ologies Limited

		Quick near reciliologies
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Kailash Katkar	Sanjay Katkar	Vinav Agarwal
Managing Director & CEO	Joint Managing Director & CTO	Compliance Officer
DIN: 00397191	DIN: 00397277	Membership No. A40751

Date: October 28, 2022

Place: Pune